



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21—फरवरी 27, 2009 (फाल्गुन 2, 1930)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21—FEBRUARY 27, 2009 (PHALGUNA 2, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2009

के मुरली
अवर सचिव

सं. 96, दिनांक 4 फरवरी 2009—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी, श्रीमती अरुणा बी सेन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 सितम्बर, 2008 के आदेश संख्या 5/1/2008-सीएस-I (यू) की शर्तों के अन्तर्गत 01 अक्टूबर, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

सेना शाखा

सं. 97, दिनांक 4 फरवरी 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

(स्थायी आयोग)

(लेफ्टि के पद पर 07 जून 2008 से)

निम्नलिखित टी ई एस-11 पाठ्यक्रम के कैंडिडेटों की सशस्त्र सेना में लेफ्टि के पद पर दिनांक 07 जून 2008 से स्थायी रूप से विशेष निर्देश 3/99 के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आईसी नं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-70592एम) राहुल यादव, इंजीनियर्स

(आईसी-70593पी) डैनिस, ईएमई

2. उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- (आईसी-70594एक्स) प्रेरित कपूर, एओसी
 (आईसी-70595ए) अक्षय चोरपडे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70596एच) संदीप कुमार, एओसी
 (आईसी-70597एल) परिणय बंसल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70598एन) विष्णु आर चिकोर्डे, आर्टी
 (आईसी-70599डब्ल्यू) संतोष कुमार सिंह, एएससी
 (आईसी-70600ए) रवीश दुआ, आर्टी
 (आईसी-70601एच) नितिन कुमार चौधरी, एओसी
 (आईसी-70602एल) सुतार अलौकिक विजय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70603एन) अरुण गोस्वामी, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70604डब्ल्यू) मंगेश रघुनाथ देशमुख, इंजीनियर्स
 (आईसी-70605वाई) सन्दीपन दे, आर्टी
 (आईसी-70606एफ) जय नैथानी, सिग्नल्स
 (आईसी-70607के) राहुल श्रीवास्तवा, ईएमई
 (आईसी-70608एम) कुलदीप सिंह नागरा, सिग्नल्स
 (आईसी-70609पी) आनन्द झा, आर्टी
 (आईसी-70610के) आदित्य प्रकाश मौर्य, ईएमई
 (आईसी-70611एम) विक्रम शाही, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70612पी) पुष्पेन्द्र नाथ घोष, इंजीनियर्स
 (आईसी-70613एक्स) राजन सिंह, ईएमई
 (आईसी-70614ए) मराठे अक्षय अरुण, आर्टी
 (आईसी-70615एच) इकबालजीत सिंह ढिल्लो, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70616एल) संजय कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70617एन) मोहित अरोरा, एएससी
 (आईसी-70618डब्ल्यू) वी संदीप, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70619वाई) सुधीर रंजन बेहेरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70620एन) विभोर जैन, इंजीनियर्स
 (आईसी-70621डब्ल्यू) शैलेश अनील जोशी, आर्टी
 (आईसी-70622वाई) प्रतोक मेहता, इंजीनियर्स
 (आईसी-70623एफ) आशीष छिकारा, एएससी
 (आईसी-70624के) माने स्वप्निल सतीश, ईएमई
 (आईसी-70625एम) शेखर ओहलान, एसी
 (आईसी-70626पी) अंकित अग्रवाल, एएडी
 (आईसी-70627एक्स) गौरव ठाकुर, ईएमई
 (आईसी-70628ए) सूरज पाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70629एच) सुमित कुमार, आर्टी
 (आईसी-70630एक्स) विवेक सिंह चौहान, सिग्नल्स
 (आईसी-70631ए) भव्य कुलश्रेष्ठ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70632एच) विक्रमादित्य सिंह, एसी
 (आईसी-70633एल) नितेश भारद्वाज, सिग्नल्स
 (आईसी-70634एन) रोहित चुघ, ईएमई
 (आईसी-70635डब्ल्यू) झा अभिषेक कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70636वाई) रमाकान्त यादव, एसी
 (आईसी-70637एफ) मानस बाजपेई, सिग्नल्स
 (आईसी-70638के) सम्राट सिंह ढोंडसा, आर्टी
 (आईसी-70639एम) विनय गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70640एफ) सौरव गोस्वामी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70641के) वरुण सेगन, एसी
 (आईसी-70642एम) प्रतीक सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70643पी) अमल सैली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70644एक्स) संजीव महापात्रा, आर्टी
 (आईसी-70645ए) आर कृष्ण चैतन्या, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70646एच) कीर्ति कुमार सेंगर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70647एल) लोकेश अहलावत, आर्टी
 (आईसी-70648एन) रुचित सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70649डब्ल्यू) प्रशांत ललोत्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-70650एल) शलभ सक्सेना, एएडी
 (आईसी-70651एन) एस हर्षवर्धनन, एओसी
 (आईसी-70652डब्ल्यू) सोगत नन्दी, सिग्नल्स
 (आईसी-70653वाई) पी आदित्य दीपक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70654एफ) मुरलीकृष्ण के, इंजीनियर्स
 (आईसी-70655के) आनंद वर्धन, इंजीनियर्स
 (आईसी-70656एम) अंशुल बहल, ईएमई
 (आईसी-70657पी) श्याम जी मिश्रा, एओसी
 (आईसी-70658एक्स) लैचोम्बम मनिसाना सिंह, इन्ट
 (आईसी-70659ए) प्रदीप कुमार, आर्टी
 (आईसी-70660पी) पिसाल मिनार सुनिल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70661एक्स) भास्कर सिंह, आर्टी

(आईसी-70662ए) विनय चन्द्रशेखर करगुद्री, ईएमई

(आईसी-70663एच) प्रशांत सिंह, एएससी

(आईसी-70664एल) कार्तिक एम, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70665एन) चव्हाण राहुल विष्णु, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70666डब्ल्यू) इन्द्र प्रताप सिंह, एसी

(आईसी-70667वाई) ए रियाज़ खॉं, आर्टी

(आईसी-70668एफ) नितिन रविन्द्रन, सिग्नल्स

स्थाई आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जे सी ओज/एन सी ओज को सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत 13 अगस्त 2008 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरीयता के क्रम में स्थाई आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सभी जे सी ओज को जिनकी जे सी ओज और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है और जो इस अधिसूचना में सम्मिलित हैं, उन्हें सेना अनुदेश 85/74 के सब पैरा 7 (सी) के अन्तर्गत केवल वेतन के लिए दो साल की वरीयता दी जाती है :-

सेना नम्बर, पद, नाम, एस एल नम्बर, पिछली आर्म/सर्विस तथा श्रेणी

(जेसी-325842पी) सूबेदार मेजर राज कुमार चौहान (04987एन), इंजीनियर्स, आईबी/आर और एएस डब्ल्यू

(जेसी-325835वाई) सूबेदार राम पाल सिंह (04988डब्ल्यू), इंजीनियर्स, आईई/ईएम/आईईएम

(जेसी-330578डब्ल्यू) नायब सूबेदार बोंबडे अविनाश नारायण राव (04989वाई), इंजीनियर्स, आईबी/आर और एएस डब्ल्यू

(जेसी-376261ए) नायब सूबेदार संजय मिश्र (04990एन), सिग्नल्स, टैलीकाम आफिसर

(जेसी-270221एन) नायब सूबेदार प्रेशस सी वी (04991डब्ल्यू), आर्टी, रिकार्ड आफिसर

(9512060एक्स) हवलदार मैथ्यू के टी (04992वाई), आईसी, रिकार्ड आफिसर

(9512078एन) हवलदार वीरेन्द्र (04993एफ), आईसी, रिकार्ड आफिसर

(9512146डब्ल्यू) हवलदार सुनील एम एल (04994के), आईसी, एजुकेशन आफिसर

(6390527एक्स) हवलदार कनकराज कोलवट्ट (के वी) (04995एम), एएससी, रिकार्ड आफिसर

(9512368एल) हवलदार प्रवीण (04996पी), आईसी, रिकार्ड आफिसर

(7241121एफ) दफादार जे के अमल राज (04997एक्स), आरवीसी, रिकार्ड आफिसर

(14615309एफ) हवलदार देबाशीष डे (04998ए), ईएमई, रिकार्ड आफिसर

(15393143पी) हवलदार नरोत्तम शर्मा (04999एच), एएससी, रिकार्ड आफिसर

(6931573एम) हवलदार अक्षय कुमार राजत (05000के), एओसी, आईसीओ

(4075813डब्ल्यू) हवलदार संतोष सिंह (05001एम), गढ़वाल राईफल्स, रिकार्ड आफिसर

(6390091एक्स) हवलदार अनमोल सिंह (05002पी), एएससी, रिकार्ड आफिसर

(13695160ए) हवलदार प्रकाश पाटिल (05003एक्स), गार्ड्स, रिकार्ड आफिसर

(9102119एल) हवलदार रंजन कुमार (05004ए), जैक लार्ड, रिकार्ड आफिसर

(13993377के) हवलदार पांडे शरद प्रकाश (05005एच), एएससी, रिकार्ड आफिसर

(6391485एच) हवलदार सोजन जोसफ (05006एल), एएससी, रिकार्ड आफिसर

(14635635एल) नायक गिरीश एस बी (05007एन), ईएमई, रिकार्ड आफिसर

निम्नलिखित 103 (एक सौ तीन) जैण्टलमैन कैंडेडेट्स जोकि 105 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 07 जून 2008 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 जून 2006 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :-

आईएमए संख्या, नाम, आईसी संख्या तथा आर्म्स/सर्विस

यू/825 कनिष्क सिंह सिवाच (70669के), ईएमई

यू/797 चैतन्य सांगवान (70670वाई), ईएमई

यू/798 महेन्द्र सिंह तोमर (70672के), ईएमई

यू/826 अविनाश देशमुख (70673एम), इंजीनियर्स

यू/757 गौरव (70674पी), इंजीनियर्स

यू/793 सोनवणे धनंजय सुधीर (70675एक्स), ईएमई

यू/751 मनोज कुमार मलिक (70676ए), इंजीनियर्स

यू/766 पवित्र चन्द सोमर (70677एच), सिग्नल्स

टी/6484	विकास अग्निहोत्री (70678एल), एएडी	यू/841	राहुल सैनी (70715एन), सिग्नेल्स
यू/796	तरूनप्रीत सिंह (70679एन), ईएमई	टी/6516	अक्षय पन्त (70716डब्ल्यू), सिग्नेल्स
यू/769	अमित वासुदेवा (70680एच), सिग्नेल्स	टी/6529	विनय शर्मा (70717वाई), इंजीनियर्स
यू/735	अमित भट्ट (70681एल), इंजीनियर्स	टी/6513	नाउरेम बोबोतोम्बी (70718एफ), ईएमई
टी/6523	कार्तिक नटराजन (70682एन), ईएमई	यू/837	सतीश अलियास नारायणासामी एस (70719के), इंजीनियर्स
टी/6506	विकास मिश्रा (70683डब्ल्यू), एएडी	यू/781	श्रीजित आर नायर (70720वाई), ईएमई
यू/831	ईश्वर प्रसाद मीणा (70684वाई), ईएमई	यू/799	नरेन्द्र शर्मा (70721एफ), इंजीनियर्स
यू/738	तपन नौडियाल (70685एफ), इंजीनियर्स	यू/737	अमित डी मेश्राम (70722के), इंजीनियर्स
टी/6502	राहुल पंकज (70687एम), इन्फैन्ट्री	यू/770	सुशील चन्द (70723एम), इंजीनियर्स
यू/811	अभिजय (70688पी), इंजीनियर्स	यू/786	किशन कान्त गौतम (70724पी), इंजीनियर्स
यू/819	वैभव पटोदिया (70689एक्स), ईएमई	टी/6528	अखिल सकलानी (70725एक्स), इंजीनियर्स
टी/6515	विशाल सिंह मेहता (70690एम), सिग्नेल्स	यू/807	मनोज गोराड (70726ए), सिग्नेल्स
यू/739	प्रशांत चन्द्र सरकार (70691पी), इंजीनियर्स	यू/834	राकेश कुमार शर्मा (70727एच), ईएमई
यू/788	विपिन सिंह रन्धावा (70692एक्स), इंजीनियर्स	यू/762	सार्थक मेहता (70728एल), ईएमई
टी/6511	अमरप्रीत सिंह सिद्धू (70693ए), इंजीनियर्स	यू/761	सिद्धार्थ भनोट (70730एच), इन्फैन्ट्री
यू/801	हितेप कुमार भारद्वाज (70694एच), इंजीनियर्स	यू/813	अमन कटारिया (70731एल), ईएमई
टी/6524	मनदीप सिंह विक (70695एल), इंजीनियर्स	यू/764	गौरव आनन्द (70732एन), इंजीनियर्स
यू/776	प्रवीण नायर (70696एन), ईएमई	यू/743	विशाल शर्मा (70733डब्ल्यू), सिग्नेल्स
यू/755	धूरजोटी शंकर चक्रवर्ती (70697डब्ल्यू), इंजीनियर्स	यू/828	यादव राजनाथ केदारनाथ (70734वाई), इंजीनियर्स
टी/6507	गुलबाग सिंह सोढी (70698वाई), एएडी	यू/746	देवेन्द्र सिंह शेखावत (70735एफ), सिग्नेल्स
यू/773	ओमपाल तोमर (70699एफ), सिग्नेल्स	यू/795	सुजीत बाबू (70737एम), ईएमई
यू/804	करन दीप जोशी (70700एल), ईएमई	टी/6500	पिसे भरत सुरेश (70738पी), इंजीनियर्स
यू/833	करण मेहता (70701एन), ईएमई	यू/749	सुमन्त यादव (70739एक्स), इंजीनियर्स
यू/741	प्रफुलचंद्र आदमाने (70702डब्ल्यू), इंजीनियर्स	यू/846	रकिन्दर सिंह भाटिया (70740एम), सिग्नेल्स
यू/774	विनीत वासुदेव शर्मा (70703वाई), सिग्नेल्स	टी/6531	राजीव जी मेहरा (70741पी), एएडी
टी/6520	फलटाने आनंद नंदकुमार (70704एफ), इंट	यू/820	सुमित शरद खरे (70742एक्स), सिग्नेल्स
टी/6509	दिनेश शर्मा (70706एम), इंजीनियर्स	यू/829	जितेन्द्र पारीक (70743ए), इंजीनियर्स
टी/6504	राज कुमार आर (70707पी), एएडी	यू/787	करणदीप खत्री (70744एच), इंजीनियर्स
यू/810	विशाल राणा (70708एक्स), ईएमई	यू/817	सुधीर सिंह गुलेरिया (70745एल), इंजीनियर्स
टी/6503	चलजीत सिंह (70710पी), इंजीनियर्स	टी/6527	विनीत सिंह पठानियाँ (70746एन), एओसी
यू/822	राकेश खटकर (70711एक्स), इंजीनियर्स	यू/744	आदित्य गौड़ (70747डब्ल्यू), इंजीनियर्स
टी/6534	गौरव पराशर (70712ए), इंजीनियर्स	टी/6521	कुलदीप सिंह यादव (70748वाई), इंजीनियर्स
टी/6530	संचित राठौर (70713एच), ईएमई	यू/785	निशान सिंह (70749एफ), ईएमई
यू/839	पंकज शर्मा (70714एल), ईएमई	यू/782	कपिल कुमार कंसल (70750डब्ल्यू), ईएमई

यू/844	गुरप्रीत सिंह (70751वाई), इंजीनियर्स	टी/6502	राहुल पंकज (43026एच), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/847	मनजीत सिंह (70752एफ), सिग्नल्स	टी/6503	बलजीत सिंह (43027एल), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/772	मुहम्मद रकीब (70753के), इंजीनियर्स	टी/6504	राज कुमार आर (43028एन), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/752	अनिरुद्ध सिकंदर (70754एम), ईएमई	टी/6506	विकास मिश्रा (43030एल), ईएमई, 16 जुलाई 2007
टी/6512	सुशान्त सिंह (70755पी), ईएमई	टी/6507	गुलबाग सिंह सोढी (43031एन), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
यू/745	गौरव आशधीर (70756एक्स), इंजीनियर्स	टी/6508	अमित कौल (43032डब्ल्यू), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/830	विजय पटेल (70757ए), इंजीनियर्स	टी/6509	दिनेश शर्मा (43033वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007
टी/6501	सौरभ रॉय (70758एच), सिग्नल्स	टी/6510	निशांत कुमार (43034एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/791	अजीत जे बाबू (70759एल), सिग्नल्स	टी/6511	अमरप्रीत सिंह सिद्धू (43035के), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
यू/794	रागेश कुमार आर (70760ए), इंजीनियर्स	टी/6512	सुशान्त सिंह (43036एम), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/815	अमरिंदर सिंह (70761एच), इंजीनियर्स	टी/6513	नाओरेम बोबोतोम्बी (43037पी), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/758	सौरभ विज (70762एल), ईएमई	टी/6515	विशाल सिंह मेहता (43039ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/802	नीरज कुमार पाण्डेय (70763एन), सिग्नल्स	टी/6516	अक्षय पन्त (43040पी), ईएमई, 16 जुलाई 2007
टी/6519	लक्ष्मी नारायणन जे (70764डब्ल्यू), सिग्नल्स	टी/6519	लक्ष्मी नारायणन जे (43043एच), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/777	ऋकदेव घोष (70765वाई), सिग्नल्स	टी/6520	फलटाने आनंद नंदकुमार (43044एल), ईएमई, 16 जुलाई 2007
टी/6508	अमित कौल (70766एफ), ईएमई	टी/6521	कुलदीप सिंह यादव (43045एन), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
टी/6536	रोहित सिंह बघेल (70767के), एएडी	टी/6523	कार्तिक नटराजन (43047वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/832	पुनीत बत्रा (70768एम), इंजीनियर्स	टी/6524	मनदीप सिंह विक (43048एफ), इंजीनियर्स 16 जुलाई 2007
यू/753	कबीर कोहली (70769पी), ईएमई	टी/6527	विनीत सिंह पटानियाँ (43050वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/747	रेक्स फिलिप (70770के), ईएमई	टी/6528	अखिल सकलानी (43051एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/765	जैना अश्विनकुमार अभिमन्यू (70771एम), ईएमई	टी/6529	विनय शर्मा (43052के), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
यू/740	अक्षय नाशिककर (70772पी), ईएमई	टी/6530	संचित राठौर (43053एम), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/823	पुष्पेन्द्र सिंह (70773एक्स), इंजीनियर्स	टी/6531	राजीव जी मेहरा (43054पी), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
टी/6510	निशांत कुमार (70774ए), एओसी	टी/6534	गौरव पराशर (43057एच), ईएमई, 22 जुलाई 2007
यू/821	दीपेश चन्द्र पंत (70775एच), सिग्नल्स	टी/6536	रोहित सिंह बघेल (43059एन), इंजीनियर्स, 30 जुलाई 2007
यू/806	अंशुमान अग्रहरि (70776एल), सिग्नल्स	टी/6538	कमल नैन सिंह (43061एल), इंजीनियर्स, 01 अगस्त 2007
टी/6538	कमल नैन सिंह (70777एन), ईएमई		16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम
	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)	यू/735	अमित भट्ट (43067एम), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2006
	निम्नलिखित 102 (एक सौ दो) जैण्टलमैन कैंडेड्स जो कि 105 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-	यू/737	अमित डी मेश्राम (43069एक्स), ईएमई, 05 जुलाई 2006
	आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि	यू/738	तपन नौडियाल (43070एम), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
	105 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम	यू/739	प्रशांत चन्द्र सरकार (43071पी), ईएमई, 18 जुलाई 2006
	टी/6500	पिसे भरत सुरेश (43024एक्स), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007	
	टी/6501	सौरभ रॉय (43025ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	

यू/740	अक्षय नाशिककर (43072एक्स), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007	यू/786	किशन कान्त गौतम (43118पी), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/741	प्रफूलचंद्र आदमाने (43073ए), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/787	करणदीप खत्री (43119एक्स), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/743	विशाल शर्मा (43075एल), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2006	यू/788	विपिन सिंह रंधावा (43120एम), इंजीनियर्स, 01 अगस्त 2006
यू/744	आदित्य गौड़ (43076एन), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/791	अजीत जे बाबू (43123ए), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/745	गौरव आशधीर (43077डब्ल्यू), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/793	सोनवणे धनंजय सुधीर (43125एल), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
यू/746	देवेन्द्र सिंह शेखावत (43078वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/794	रागेश कुमार आर (43126एन), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/747	रेक्स फिलिप (43079एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/795	सुजीत बाबू (43127डब्ल्यू), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/749	सुमन्त यादव (43081वाई), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2006	यू/796	तरुणप्रीत सिंह (43128वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/751	मनोज कुमार मलिक (43083के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/797	चैतन्य सांगवान (43129एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/752	अनिरुद्ध सिकंदर (43084एम), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2006	यू/798	महेन्द्र सिंह तोमर (43130डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 03 जुलाई 2006
यू/753	कबीर कोहली (43085पी), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/799	नरेन्द्र शर्मा (43131वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/755	धूरजोटी शंकर चक्रवर्ती (43087ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/801	हितेश कुमार भारद्वाज (43133के), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/757	गौरव (43089एल), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2006	यू/802	नीरज कुमार पाण्डेय (43134एम), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/758	सौरभ विज (43090ए), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/804	करन दीप जोशी (43136एक्स), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2006
यू/761	सिद्धार्थ भनोट (43093एन), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/806	अंशुमान अग्रहरि (43138एच), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2006
यू/762	सार्थक मेहता (43094डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2006	यू/807	मनोज गोराइ (43139एल), ईएमई, 05 अगस्त 2006
यू/764	गौरव आनन्द (43096एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/810	विशाल राणा (43142एल), सिग्नल्स, 17 अक्टूबर 2006
यू/765	जैना अश्विनकुमार अभिमन्यू (43097के), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2006	यू/811	अभिजय (43143एन), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/766	पवित्र चन्द सीमर (43098एम), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007	यू/813	अमन कटारिया (43145वाई), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2006
यू/769	अमित वासुदेवा (43101एफ), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2006	यू/815	अमरिंदर सिंह (43147के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/770	सुशील चन्द (43102के), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/817	सुधीर सिंह गुलेरिया (43149पी), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2006
यू/772	मोहम्मद रकीब (43104पी), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007	यू/819	वैभव पटोदिया (43151एम), ईएमई, 24 जुलाई 2006
यू/773	ओमपाल तोमर (43105एक्स), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/820	सुमित शरद खरे (43152पी), ईएमई, 16 जुलाई 2007
यू/774	विनीत वासुदेव शर्मा (43106ए), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/821	दीपेश चन्द्र पंत (43153एक्स), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
यू/776	प्रतीष्ठा नायर (43108एल), ईएमई, 16 जुलाई 2007	यू/822	राकेश खटकर (43154ए), ईएमई, 03 जुलाई 2006
यू/777	ऋकदेव घोष (43109एन), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2006	यू/823	पुष्पेन्द्र सिंह (43155एच), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
यू/781	श्रीजित आर नायर (43113डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007	यू/825	कनिष्क सिंह सिवाच (43157एन), ईएमई, 31 जुलाई 2006
यू/782	कपिल कुमार कंसल (43114वाई), सिग्नल्स, 21 जुलाई 2006	यू/826	अविनाश देशमुख (43158डब्ल्यू), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2006
यू/785	निशान सिंह (43117एम), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007	यू/828	यादव राजनाथ केदारनाथ (43160एन), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
		यू/829	जितेन्द्र पारीक (43161डब्ल्यू), सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2006
		यू/830	विजय पटेल (43162वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007

- यू/831 ईश्वर प्रसाद मीणा (43163एफ), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2006
- यू/832 पुनीत बत्रा (43164के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
- यू/833 करण मेहता (43165एम), ईएमई, 16 जुलाई 2007
- यू/834 राकेश कुमार शर्मा (43166पी), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007
- यू/837 सतीश एलियास नारायणासामी एस (43169एच), इंजीनियर्स, 05 जुलाई 2006
- यू/839 पंकज शर्मा (43171ए), ईएमई, 01 जुलाई 2006
- यू/841 राहुल सैनी (43173एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
- यू/844 गुरप्रीत सिंह (43176वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
- यू/846 रकिन्दर सिंह भाटिया (43178के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
- यू/847 मनजीत सिंह (43179एम), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
- जैण्टलमैन कैंडेट्स को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

नीलेश चौधरी
मेजर
ए एम एस-8बी

थल सेना विभाग

सं. 98, दिनांक 4 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

स्थायीकरण

- (डी एस-12071एन) मेजर अनु आर्ची, 12 जुलाई 2002
- (डी एस-12126एम) कैंप्टन हेमा रामदास, 25 सितम्बर 2004
- (डी एस-12141एफ) कैंप्टन कमल वर्मा, 07 अप्रैल 2005
- (डी एस-12163ए) कैंप्टन नरेन्द्र सिंह, 01 जून 2005
- (डी एस-12173के) कैंप्टन नवनीत व्यास, 28 सितम्बर 2005
- (डी एस-12186एफ) कैंप्टन अतुल गुप्ता, 09 मार्च 2006
- (डी एस-12189पी) कैंप्टन एस वी एस भट्ट, 10 मार्च 2006
- (डी एस-12224एम) कैंप्टन पी के ध्यानी, 19 मई 2006

(डी एस-12336एफ) कैंप्टन ए नवीन कुमार, 21 मार्च 2007

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थाई कमीशन में पक्का करते हैं :-

(डी आर-10592एच) मेजर वी वी भलाली, 29 मई 2002

(डी आर-10601वाई) कैंप्टन अनिल कुमार एस, 25 फरवरी 2004

(डी आर-10612एल) कैंप्टन नवीन कुमार, 23 दिसम्बर 2004

डी के तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

थल सेना शाखा

सं. 99, दिनांक 4 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

एयर कोमोडोर से सर्जन रियर एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर डी के खन्ना -- 01 मई 2008 वेतन व पेंशन पर बिना (एम आर-04934पी) (75972) प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है

ब्रिगेडियर से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर मन्दीप सिंह -- 24 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2008 से दी जाती है

बी एस राठौड़
ब्रिगेडियर
उप म. नि. स. से. चि. सेवा (कार्मिक)

सेना सचिव शाखा

सं. 100, दिनांक 5 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

- रैंक, नाम, आईसी, आर्म -- मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
- ब्रिगे. एस के चौधरी -- 06 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु (आईसी-33052), ईन्ट वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी
- ब्रिगे. दीपीन्द्र सिंह -- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता (आईसी-33235), 73 एआर परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी
- ब्रिगे. बी पी एस दुंडल -- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता (आईसी-33241), एओसी परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी
- ब्रिगे. वाई वी मोहन -- 08 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता (आईसी-30322), परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी

ब्रिगे. ए. के. सिंह (आईसी-30326), बिहार	-- 24 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. उमंग सेठी (आईसी-30485), सिख	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. टी. एस. हांडा (आईसी 30331), पारा	-- 25 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. जे. पी. नेहरा (आईसी-30503), मद्रास	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. पी. पाल, बी. एस. एम. (आईसी-30333), 4 जी आर	-- 25 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. चोपड़ा संजीव (आईसी-30507), गाईस	-- 04 जून 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. बी. के. भट्ट, एस. एम. बी. एस. एम. (आईसी-30337), इंजी	-- 25 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. कुलदीप सिंह (आईसी-30516), एएडी	-- 08 अप्रैल 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. अभिजांत गुहा (आईसी-30342), आर्टी (जी. सी.)	-- 25 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. एस. के. विजेश्वर (आईसी-30521), आर्टी (जी. सी.)	-- 04 जून 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. दलबीर सिंह (आईसी-30351), 5 जी आर	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. राजीव दत्त (आईसी-30571), इंजी	-- 01 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. एस. ए. हमनैन, बी. एस. एम. (आईसी-30353), गडरिफ	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. जे. पी. सिंह, एस. सी. (आईसी-30574), एएडी	-- 01 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. एन. एस. विद्यार्थी (आईसी-30380), आर्टी	01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. एस. एस. नायर (आईसी-30612), ईईसी	-- 01 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. संजीव चाचरा (आईसी-30389), राजपूत	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. एस. एम. मेहता, एस. एम. (आईसी-31917), ई. एम. ई.	-- 01 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. आर. पी. दरस्ताने (आईसी-30392), आर्टी (जी. सी.)	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. जतेन्द्र सिंघला (आईसी-31968), ई. एम. ई.	-- 27 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. ए. श्रीवास्तव (आईसी-30400), एएडी	-- 14 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. डी. एल. चौधरी, बी. एस. एम. (आईसी-33450), जाट	-- 04 जून 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. पुरी विक्रम (आईसी-30406), एएडी (जी. सी.)	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. ओ. पी. सोनी (आईसी-33454), आर्टी	-- 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. एम. एन. काशिद (आईसी-30407), आर्टी	-- 01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. किशन सिंह (आईसी-33520), 9 जीआर	-- 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. बी. के. मरुला (आईसी-30408), आर्टी	-- 01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. बी. के. धाल (आईसी-33554), आर्टी	-- 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. बंधन अर. एच. (आईसी-30464), आर्टी (जी. सी.)	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. एस. एन. स्वामी (आईसी-36711), इंजी	01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. नियमलोक सिंह (आईसी-30465), ई. एम. ई.	-- 01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. मानवेंद्र सिंह (आईसी-30682), गाईस	-- 18 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. भाटिया विनोद (आईसी-30482), पारा	-- 21 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2007 से दी जाएगी	ब्रिगे. रामेश्वर यादव (आईसी-30683), राज रिफ	-- 01 अगस्त 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2007 से दी जाएगी

ब्रिगे. एम ए नायक एस एम (आईसी-30686), इंजी	-- 01 अगस्त 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस ए अली, एस एम (आईसी-37061), कुमाऊँ	-- 02 मई 2007
ब्रिगे. संजीव लंगर (आईसी-30687), 69 ए आर	-- 22 अगस्त 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल के देव, वी एस एम (आईसी-37077), डोगरा	-- 02 मई 2007
ब्रिगे. ए के कालिया (आईसी-30692), ईएमई	-- 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस के मनचंदा (आईसी-37084), एओसी	-- 01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 मई 2007 से दी जाएगी
ब्रिगे. एस वी भीडे, वी एस एम (आईसी-30697), पारा	-- 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल ए एस चीमा (आईसी-37101), आर्म्ड	-- 02 मई 2007
ब्रिगे. ए टी परनाथक (आईसी-30701), इंजी	-- 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल के एस राव, एस एम (आईसी-37673), इंजी	-- 02 मई 2007
ब्रिगे. पी कम्पोज (आईसी-30702), मैक इन्फ	-- 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल नरेन्द्र सिंह (आईसी-35108), इंजी	-- 03 मई 2007
ब्रिगे. ए के चौधरी (आईसी-30708), महार	-- 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल आर वी कानितकर (आईसी-35109), आर्म्ड	-- 03 मई 2007
ब्रिगे. वी शर्मा (आईसी-30722), इंजी	-- 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल वेणु गोपाल मेनन (आईसी-35110), इंजी	-- 03 मई 2007
ब्रिगे. मल्होत्रा अनिल (आईसी-30783), एएससी	-- 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल आर के सिंह (आईसी-35111), कुमाऊँ	-- 03 मई 2007
ब्रिगे. ए के चतुर्वेदी (आईसी-30817), इंजी	-- 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जुलाई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस श्रीधर (आईसी-35112), आर्म्ड	-- 03 मई 2007
नियमित सेना		कर्नल डी कपूर (आईसी-35114), मैक इन्फ	-- 04 मई 2007
स्थायी कमीशन		कर्नल जगबीर सिंह (आईसी-35115), मैक इन्फ	-- 04 मई 2007
ब्रिगेडियर के मूल रैंक में		कर्नल एस पी नवाथे (आईसी-35118), इंजी	-- 04 मई 2007
रैंक, नाम, आई सी, आर्म	-- ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि	कर्नल वी एस चौहान, एस एम (आईसी-35122), कुमाऊँ	-- 04 मई 2007
कर्नल एल के रामपाल (आईसी-36913), जाट	-- 01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल पी एम करियप्पा (आईसी-35124), सिग्स	-- 01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल पी डी गुप्ता (आईसी-34509), सिग्स	-- 01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस गनपथी (आईसी-35130), मैक इन्फ	-- 05 मई 2007
कर्नल जे एस स्वह्न (आईसी-37017), आर्टी	-- 01 मई 2007	कर्नल राकेश बासी, एस एम (आईसी-35134), इंजी	-- 05 मई 2007
कर्नल एस कुलकर्नी, एस सी, एस एम (आईसी-37022), कुमाऊँ	-- 01 मई 2007	कर्नल डी एस नेगी (आईसी-35136), कुमाऊँ	-- 05 मई 2007
कर्नल आर पी एस मान (आईसी-37028), डोगरा	-- 01 मई 2007	कर्नल पी एम कारिज (आईसी-35137), मैक इन्फ	-- 05 मई 2007
		कर्नल बी स्ती सरमाह, एस एम (आईसी-35140), गढ़वाल रिफ.	-- 06 मई 2007
		कर्नल टी एस दत्ता (आईसी-35141), आर्टी	-- 06 मई 2007
		कर्नल राहुल गुप्ता (आईसी-35142), एएडी	-- 01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 मई 2007 से दी जाएगी

कर्नल राकेश निझावन (आईसी-35144), एएडो	--	06 मई 2007	कर्नल जे अनंथारमन (आईसी-35237), सिख	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल जे एस माथरू, वी एस एम (आईसी-35145), ईएमई	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल जे वर्मा, वी एस एम (आईसी-35246), डोगरा	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल नीरज पाठक (आईसी-35150), आर्म्ड	--	06 मई 2007	कर्नल जी एस चीमा (आईसी-35249), आर्म्ड	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल डी के पुरोहित, एस एम (आईसी-35153), महार	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल ए के नागपाल (आईसी-35250), आर्म्ड	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल ए के सिक्काच (आईसी-35160), जैक रिफ	--	07 मई 2007	कर्नल एच गोपालन (आईसी-35258), एएडो	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल एस के अनेजा (आईसी-35163), ईएमई	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल के एन पी नायर, एस एम (आईसी-35261), बिहार	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल यशवन्त मिश्र (आईसी-35167), ईएमई	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल के पी चांद (आईसी-35266), आर्टी	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल आर सिंह (आईसी-35171), 3जी आर	--	07 मई 2007	कर्नल पी के जाम्ब (आईसी-35270), एओसी	--	01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल आर जे नंगेन्हा (आईसी-35173), राजपूत	--	08 मई 2007	कर्नल जे के कुरियन (आईसी-35272), इन्ट	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल के सिंह (आईसी-35183), डोगरा	--	08 मई 2007	कर्नल जे सिंह (आईसी-35282), कुमाऊँ	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल एस एस मलिक (आईसी-35185), आर्टी	--	08 मई 2007	कर्नल विकास जोशी (आईसी-35284), आर्टी	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल आर के शर्मा, एस एम (आईसी-35188), जैक लाई	--	08 मई 2007	कर्नल एस उप्पल, वी एस एम (आईसी-35290), कुमाऊँ	--	02 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल अजय कोहली (आईसी-35189), सिग्स	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल वी एन प्रसाद, एस एम (आईसी-35307), पारा	--	06 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल यू के राय (आईसी-35199), बिहार	--	09 मई 2007	कर्नल एस के पाटिल (आईसी-35317), एएससी	--	15 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल ए के सहगल (आईसी-35201), एएडो	--	09 मई 2007	कर्नल अशोक शर्मा (आईसी-35318), एओसी	--	22 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल यू एस वाधा, वी आर सी (आईसी-35204), जेट	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल बी एन पी चन्द्रन (आईसी-35340), राजपूत	--	29 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल के एच मिश्र, वाई एस एम (आईसी-35206), राजपूत	--	09 मई 2007	कर्नल राजीव जोहरी (आईसी-35365), आर्टी	--	29 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल ए के कार्दिया (आईसी-35224), एओसी	--	01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 मई 2007 से दी जाएगी			
कर्नल के जी कृष्ण, वी एस एम (आईसी-35226), ग्रेन	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी			
कर्नल जो पी मिश्र (आईसी-35235), एएससी	--	01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2007 से दी जाएगी			

कर्नल कुलवन्त सिंह (आईसी-35513), आर्टी	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल ए पी सिंह (आईसी-35646), इंजी	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल बी एम दान् (आईसी-35515), कुमाऊँ	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल बी सी मैथ्यू (आईसी-35650), कुमाऊँ	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल संजय सरन, आई एस एम (आईसी-35521), आर्टी, (जीसी)	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल टी जार्ज (आईसी-35655), असम	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल वी के यादव, एस सी (आईसी-35527), आर्टी	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल गौतम कर (आईसी-35667), आर्टी (जी सो)	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल एन बार्ती, एस एम (आईसी 35538), बिहार	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस डी भंडारे (आईसी-35681), आर्टी	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल संजीव शुक्ला (आईसी-35550), आर्म्ड	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एम पी एस बवेजा (आईसी-35692), सिंग	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल हरिन्दर भनोट (आईसी-35559), इंएम्ड	-- 01 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल पी एस मन्डर (आईसी-35697), पंजाब	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल बी के जैन (आईसी-35563), जैक लाई	-- 05 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस एस सिरोही (आईसी-35706), एएससी	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल एम जे मैथ्यू (आईसी-35566), आर्टी	-- 23 नवम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल जी श्रीनिवासन (आईसी-35717), आर्टी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल सी प्रकाश (आईसी-35581), आर्टी	-- 01 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एस बी अस्थाना, एस एम (आईसी-35731), आसाम	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल भूपिन्दर सिंह (आईसी-35586), मैक इन्फ	-- 01 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एच एस पुरी (आईसी-35746), एएससी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल एम पी सिंह (आईसी-35591), एएससी	-- 01 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल वाई एस सिरोही (आईसी-35760), इंजी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल ए बी शिवाने (आईसी-35602), आर्म्ड	-- 01 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल जे सैनी (आईसी-35782), जाट	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल ए के सहगल (आईसी-35625), आर्टी	-- 13 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल पी चक्रवर्ती (आईसी-25833), एईसी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल डी के सिंह (आईसी-35628), इंएम्ड	-- 28 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल सी एस नायर (आईसी-35874), जैक	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल आर बर्हीनारायण (आईसी-35637), एओसी	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल एम एस संधू (आईसी-35724), पारा	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 मई 2007 से दी जाएगी
कर्नल वी नारायण (आईसी-35643), गढ़ रिफ	01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी	कर्नल ए के वाही (आईसी-39398), इंजी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 मई 2007 से दी जाएगी

कर्नल देवचरन -- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 मई 2007 से दी जाएगी

एन के फूकन
निदेशक/एम एस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 101, दिनांक 5 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल/कर्नल (और समक) से कर्नल (चयनित और समक) के पद पर

एम आर नं., नाम, टिप्पणी

(एमआर-04735एफ) एस भटनागर -- 18 मार्च 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है

(एमआर-04994के) पी के ठाकुर -- 20 जून 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

(एमआर-05886एम) एस सी वर्मा -- 29 मई 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2008 से दी जाती है

(एमआर-05261एक्स) आर रविकुमार -- 01 अप्रैल 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जनवरी 2008 से दी जाती है

ले. कर्नल/कर्नल(टी एस) से कर्नल (चयन) (व समकक्ष) के पद पर

एस सी गुप्ता -- 01 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है

एन कुमार -- 20 मई 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

आर बी एम कृष्णा -- 21 अप्रैल 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

राजेश कुमार -- 29 अप्रैल 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

एस एस वट्टयारामबिल -- 08 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जून 2008 से दी जाती है

आर गिरीश -- 16 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जून 2008 से दी जाती है

ए चट्टोराज -- 01 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10 जून 2008 से दी जाती है

एस के जेना -- 01 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 जून 2008 से दी जाती है

वी कुमार -- 01 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जुलाई 2008 से दी जाती है

एस के सिंह -- 01 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है

एमआर सं., नाम तथा टिप्पणी

(एमआर-05781एच) अरुण चौधरी, 23 सितम्बर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है

(एमआर-06128एफ) डी के बडवाल, 27 सितम्बर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 जून 2008 से दी जाती है

(एमआर-06133एम) आर कोचर, 05 सितम्बर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जून 2008 से दी जाती है

(एमआर-06093डब्ल्यू) विरेन्द्र कुमार, 04 सितम्बर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11 जून 2008 से दी जाती है

(एमआर-05305के) एस चक्रवर्ती, 01 सितम्बर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है

(एमआर-05307पी) एस वर्धन, 01 अक्टूबर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 सितम्बर 2008 से दी जाती है

(एमआर-05315एन) जे एस सब्बरवाल, 01 अक्टूबर 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 सितम्बर 2008 से दी जाती है

सर्जन कमांडर/सर्जन कौंटन (टीएस) से

सर्जन कौंटन (चयनित) के पद पर

एमआर सं., नाम तथा टिप्पणी

(एमआर-4779वाई) (75298) के आई मथाई, 11 मार्च 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

(एमआर-5133ए) (75343) सी एस नायडू, 01 मार्च 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

(एमआर-5193पी) (20200) एम एस आर रोदे, 11 मई 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 31 दिसम्बर 2007 से दी जाती है

लेफ्टि कर्नल से ग्रुप कौंटन (व समकक्ष) के पद पर

(एमआर-04110एम) (एफ नं. 29423) आर सी बालासुन्दरम, 01 सितम्बर 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 अगस्त 2005 से दी जाती है

बी एस रावौड

मेजर जनरल

अतिरिक्त म.नि.स.से.चि. सेवा (कार्मिक)

सं. 102, दिनांक 5 फरवरी 2009--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

लेफ्टि. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
व्यक्ति नं., नाम, आम तथा मूल रैंक की तिथि
(वी-00372) जे एस धर्मधीरन, आरवीसी, 01 अगस्त 2006
(वी-00373) एम ए केलकर, आरवीसी, 01 अगस्त 2006
(वी-00376) एन शरीफ, आरवीसी, 01 अगस्त 2006
(वी-00377) ए के शुक्ला, आरवीसी, 01 अगस्त 2006
(वी-00383) देव राज, आरवीसी, 01 अगस्त 2006
(आईसी-37877) दिनेश शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-40320) एस प्रसाद, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-40426) ए झा, एएडी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-40615) आलोक मग्गू, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-37943) डी ठाकुर, एसी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41219) के नन्दाकुमारन, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41245) भरत मलिक, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41326) पी आर वेशांगी, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45114) वी एस एम जडेजा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45125) जे एस बिष्ट, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41527) आर एस भानवाला, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41602) के सी दक्षित, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41652) विरिन्दर सिंह, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45175) रणधीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45177) एस एस संधू, एसी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45183) राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45186) वी पी सिंह, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45187) ए एस ग्रेवाल, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45188) एस धिनडो, एएससी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45191) आर एस शेखावत, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45193) अतुल कौशिक, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45194) जी पी वसन्त, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45200) आर कुमार, जेएजी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45210) अनिल जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006

(आईसी-45211) आर कुन्दा, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45216) एम एस राठौर, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45221) एन कुमार, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45232) एस पी सिंह, एएडी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45236) जे एस चौहान, एसी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45238) थॉमस साबू, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45244) एस के राव, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45247) एच एस फगूरा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45250) एच एस मदान, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45253) वी राजामनी डी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45255) आर रविचन्द्रन, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45260) एम आनन्द, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45263) के एस नागियल, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45273) यू सी यादव, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-45275) आई एस सिंह, जेएजी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41853) ललित जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41854) जी एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41856) नवीन आहूजा, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41857) आर एस खर्ब, इन्ट, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41858) सी पी करियप्पा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41859) एस राधाकृष्णन, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41860) एस दयाल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41861) राजेश सूद, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41862) आर पी पुनिया, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41864) आर सोतारमैया, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41865) पी के कुमारिया, एसी, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41867) एम एन देवाया, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41868) आर विश्वास सिंह, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41869) ए भाटिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41870) अनिल जोशी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41871) पी एस दिल्ली, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41874) अरुण सहगल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41875) वी पी पौल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
(आईसी-41876) अरविन्द सिंह, एएडी, 01 अप्रैल 2006

- (आईसी-41878) जे पी आर इस्माइल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41879) जी एस संघेरा, एसी, 05 जून 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
- (आईसी-41881) राकेश कपूर, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41883) राकेश नायर, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41885) यू सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41887) प्रबोध शरन, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41889) वाई एस गणेश, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41891) अजय कुमार रॉय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41893) पी जी पवार, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41894) एस एस धनकड़, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41896) आर वी देसाई, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41898) जी एस बसरा, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41899) एस एस मुल्तानी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41904) अमरजीत सिंह, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41905) रविन्दर मलिक, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41906) संजय राय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41907) आर के बलवदा, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41908) एस बहल, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41909) एस ए रहमान, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41910) सुबीर के शर्मा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41911) आर पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41912) टी के चावला, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41914) प्रीतम बिशनोई, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41915) रोहित कपूर, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41923) यू एस मिश्रवाल, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41924) एस ग्रोवर, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41925) आनन्द एन ठाकुर, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41926) ए एच चौहान, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41927) शिवेन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41929) आर एस भदूरिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41930) आर के सिंह, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41932) के एस जून, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41934) एस पी गोस्वामी, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41940) पी कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41945) डी भट्ट्याचार्जी, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41947) डी सी मजूमदार, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41949) आर आई एस मेहता, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41951) राजू चौहान, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41952) एस चौधरी, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41955) एम एल अस्वाल, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41958) एस अरोड़ा, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41959) एस एस दिउसी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41960) ए के चानन, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41963) दीपक शर्मा, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41969) के जे बाबू, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41970) अनुपम शर्मा, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41971) डी के सिन्हा, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41972) मोहिन्दर सिंह, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41973) आर एल शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41977) डी एस सुहाग, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41978) जे पी पोटलिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41979) पी के पटनायक, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41982) टी थॉमस, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41987) एस के एस शर्मा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41994) अरुण जोशी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41995) पेम शेरिंग, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41997) एन के डबास, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41998) संजय साह, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41999) एल वर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42000) एस गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42004) आर पी कलिता, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42012) अमित सक्सेना, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42017) जसविन्दर सिंह, आर्मी एविएशन, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42018) रतन सिंह, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42019) पी एम शेओडे, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42020) अरविन्दम, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42022) आर के गुप्ता, एएडी, 01 अप्रैल 2006

- (आईसी-42025) आर एस बेन्स, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42027) खादा रवि, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42029) जी एस पुरी, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42031) एच एस धनोआ, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42032) संजय दीखित, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42033) एस एस कादियान, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42037) एस आर श्रीराम, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42038) वी पी एस पूनिया, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42040) जे वी एस एन वी प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42044) प्रकाश चन्द्र, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42046) शिविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42047) एस अब्राहम, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42055) पी एस बिन्द्रा, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42057) एम भण्डारी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42059) जेक्सन मैथ्यू, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42065) एस एम गनिगी, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42068) के बी चौधरी, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42070) अनिल दुवेदी, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42079) जे के शुक्ला, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42080) राजीव बाली, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42081) सी बी एन मूर्थी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42089) वी के एस पाटिल, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42095) के मोहन दास, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42099) वी वी बी प्रसाद, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42104) पी हीथ, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42105) उमेश शर्मा, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42123) एस कुरियाचन, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42133) के जे एम रॉय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42138) आई एस चौहान, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42142) आर जी कृष्णन, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42145) आर के कोचर, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42148) बलविन्दर सिंह, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42150) जानकी पन्त, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42156) संजय कौशल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42163) के एस धनकड़, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42165) अशोक कुमार, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42169) बिरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42171) एस कल्ला, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42174) एन सी शर्मा, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42178) विजेन्द्र सिंह, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42179) एम जे सिंह, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42180) आर के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42186) संजीव सिरोही, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42187) परितोष पन्त, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42192) मनोज कुमार, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42194) वी एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42204) ए बहुखण्डी, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42229) आर के भाटली, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42242) देबाशीष रॉय, ईईसी, 31 जुलाई 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
- (आईसी-42263) ए के व्यास, ईईसी, 02 फरवरी 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
- (आईसी-43995) राजीव जोशी, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-43997) सुनील काला, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-43998) वी आर देशमुख, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44003) एस जॉसफ, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44004) एस के मुखर्जी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44005) ऑगस्टीन टी वी, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44008) राकेश वर्मा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44013) वी के सिंह, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44025) जितेन्द्र पाल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44034) संजय दावर, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-41683) राकेश बन्धु, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45291) पी सल्होत्रा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45293) पी एस गिल, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45295) पी आर सुरेन्द्र, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45297) शम्मी राज, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45302) वी के सिंह, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-45305) विजय कॉल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006

- (आईसी-45336) पी के यादव, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42269) गिरीश जोशी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42270) के के रेप्सवाल, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42271) राकेश राणा, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42273) बी के रेप्सवाल, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42274) पी भटनागर, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42275) संदीप सिंह, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42278) बी डी राय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42280) जी भण्डारी, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42281) हरि ओम जुनेजा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42282) आर जी पाटिल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42283) जी एस कम्बो, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42284) रंजीत सिंह, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42285) एस पी रावत, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42287) आर जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42288) अनिल पुरी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42289) नरिन्द्र सिंह, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42290) ए एस राठौर, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42293) पी एस बहल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42294) एस झा, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42296) एस सरदाना, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42297) जी रामाचन्द्रन, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42298) यू द्विवेदी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42299) आई ए खान, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42300) पी एन ए नारायणन, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42303) सुरेश वारियर, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42305) टी मिश्रा, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42308) ए एस कटोच, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42309) एम एस निकम, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42310) वी एस रनाडे, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42311) संजीव बाली, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42312) मनोज मेहता, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42313) एन डी प्रसाद, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42314) जे एस धालिवाल, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42315) पी जे सिंह, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42318) के ए एस रंधावा, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42322) सिंह चवाण, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42323) अरुण गांगुली, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42324) डी के नौटियल, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42325) एल डी मिनोचा, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42327) ए कटोच, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42329) पी डंडियाल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42331) ए के ससमल, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42332) एस वाई देवस्थली, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42336) ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42339) ई एन पी नारायणन, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42343) आर डी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42345) एन शुक्ला, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42346) एस के मल्होत्रा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42347) एन कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42349) वी जी भटनागर, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42350) पी सी राय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42356) अजय पाल, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42360) कबिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42361) एस श्रीवास्तव, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42362) ए एस संधू, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42363) ए के यादव, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42364) जे एस नहरा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42365) परलाध सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42372) विनीत सूद, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42373) एस पालीवाल, आर्मी एविएशन, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42374) पी एस बेदी, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42376) रमन कक्कर, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42377) एस के चतुर्वेदी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42378) एच सी अरुण, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42380) ए के त्यागी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42382) एस प्राशर, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42384) वी के तिवारी, आर्टी, 01 अप्रैल 2006

- (आईसी-42385) वी एस माथुर, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42386) आर जॉर्ज, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42387) एस एस महल, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42389) बी एस राजू, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42390) एम यू नायर, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42391) राकेश कौल, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42395) एम जी वेंकटेश, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42397) आर कन्नन, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42399) ई वी रेड्डी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42400) तुमुल वर्मा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42401) रणबोर रे, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42404) जे सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42415) जी गिल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42416) नीरज सेठ, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42420) जे नायर, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42425) अरविन्द वर्मा, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42428) एस शौरी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42430) एम सरकार, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42449) डी कपाटिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42450) एम पी वर्गिस, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42455) एस पी यादव, एएससी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42463) एस एस जून, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42464) ए एस चौहान, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42469) इन्दराज सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42471) जयन्त मिश्रा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42475) सवनीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42481) ए के वर्मा, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42485) राज सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42490) बी के साहू, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42491) सी पी सांगरा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42492) ए कथपलिया, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42493) एच एस शनभाग, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42501) राजवीर सिंह, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42504) एस के पाण्डे, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42508) ए वी पाण्डिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42516) ओ पी गुलिया, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42517) जे सिंधू, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42520) वी वर्मा, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42521) आई जे एस दिल्ली, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42538) ए सोलंकी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42540) जे एस खेरा, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42542) एम के मगू, गार्ड्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42546) रमन शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42548) एस पाण्डे, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42549) विकास उदियाल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42552) सर्वजीत सिंह, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42555) एस पी चौधरी, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42556) एम एस पठनिया, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42557) टी एस गिल, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42561) गोपी अय्यर, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42572) बी पी शाही, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42574) के एस कादियान, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42579) आर पी तुतेजा, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42584) आर कौशल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42585) ज्ञानोदय, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42588) शदेन्दु, आर्टी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42592) एस एन दीक्षित, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42603) पी एस भाटिया, एएडी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42606) संपत गोपालन, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42610) जे एस मकोल, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42614) ए कुमार, एसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42628) जे एस सोखी, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42635) एन बी विशेष, इन्ट, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42638) नरेन्द्र पटेल, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42660) तुषार राय, एओसी, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-42706) अरुण दत्ता, एईसी, 29 जनवरी 2007 किन्तु बरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना चेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के।
- (आईसी-44425) एम आर ओजा, ईएमई, 01 अप्रैल 2006

- (आईसी-44429) डी एम राजू, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44434) एस के शर्मा, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44436) श्रीनिवास एम, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44448) राकेश गोयल, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44449) ए के मुखर्जी, ईएमई, 01 अप्रैल 2006
- (आईसी-44458) बी श्रीनिवास, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2006
- (एसएल-03112) पी राजेन्द्रन, एसएलक्यूएम, 30 अक्टूबर 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03125) पी आर विजयन, एसएलआरओ, 01 अप्रैल 2006
- (एसएल-03149) जगदेव सिंह, एसएलआरओ, 28 जून 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
- (एसएल-03151) पी एल शर्मा, एसएलआरओ, 01 अगस्त 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03152) सुखविन्दर सिंह, एसएलआरओ, 01 अगस्त 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03156) एस मन्जिल, एसएलआरओ, 01 जून 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
- (एसएल-03159) जे एस जसवाल, एसएलआरओ, 01 अक्टूबर 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03194) एन पी सनकुन्नी, एसएलबीआर, 23 अक्टूबर 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03309) आर एस चीमा, एसएलएपीटीसी, 05 फरवरी 2008 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।

अजय गोयल
उप निदेशक
एमएस-8ए

सं. 103, दिनांक 5 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

यज्जला विजया भास्कर राव (एम आर-07588पी), एएमसी, 22 सितम्बर 2008

- त्रिपती श्रीवास्तव (एम आर-07941डब्ल्यू), एएमसी, 27 सितम्बर 2008
- एम के शर्मा (एम आर-07489एम), एएमसी, 29 सितम्बर 2008
- ई सतीश (एम आर-07658एच), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008
- विपुल दत्त (एम आर-07673एक्स), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008
- निधी कुमार (एम आर-07773एच), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008
- संग्राम भट्ट्याचार्य (एम आर-06911एम), एएमसी, 06 जुलाई 2008
- दिवास्मनी शालीमठ (एम आर-07789एन), एएमसी, 06 अक्टूबर 2008
- संजीव सतीश श्रीवास्तव (एम आर-07611एक्स), एएमसी, 05 अक्टूबर 2008
- संजय कुमार राय (एम आर-07984एल), एएमसी, 04 अक्टूबर 2008
- सुरजीत कुमार शर्मा (एम आर-07942वाई), एएमसी, 03 अक्टूबर 2008
- कार्तिक वैकटामन (एम आर-07659एल), एएमसी, 03 अक्टूबर 2008
- तनुश्री मुखर्जी (एम आर-07492एम), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008
- दीपा महाजन (एम आर-07490एफ), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008

मेजर के पद पर

श्रीवानन्द अक्की (एम एस-14362एम) (एम आर-08681एच), एएमसी, 06 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

पी रामाकृष्णा प्रसाद (एम एस-14416एच) (एम आर-08682एल), एएमसी, 04 फरवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

रितु अग्रवाल (एम एस-14628एन) (एम आर-08683एन), एएमसी, 07 अप्रैल 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बसुन्धरा राय (एम एस-14657एच) (एम आर-08684डब्ल्यू), एएमसी, 07 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नवीन त्रिपाठी (एम एस-13944ए) (एम आर-08680ए), एएमसी, 06 जनवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नारायण विजया प्रालहाद (एम एस-14773एल) (एम आर-08686एफ), एएमसी, 17 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

दिनेश कुमार (एम एस 14778के) (एम आर-08687के), एएमसी, 17 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

प्रतीक यादव (एम एस-14679एफ) (एम आर-08709एक्स), एएमसी, 04 दिसम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अमरपाल सिंह (एम एस-14463ए) (एम आर-08717डब्ल्यू), एएमसी, 19 दिसम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 जुलाई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बालासुब्रामन्यम के (एम एस-14598एफ) (एम आर-08718वाई), एएमसी, 01 अप्रैल 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

धिगंगोम शान्ती कुमार सिंह (एम एस-14809वाई) (एम आर-08720डब्ल्यू), एएमसी, 29 मार्च 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 अगस्त 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कुरुमपू गैरी प्रसाद (एम एस-14900पी) (एम आर-08692पी), एएमसी, 17 फरवरी 2008

रिजवाना रियाज (एम एस-13725वाई) (एम आर-08678एच), एएमसी, 22 अक्टूबर 2000

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मोहन प्रीत बाली (एम एस-13929एल) (एम आर-08679एल), एएमसी, 04 अप्रैल 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मोहन प्रीत बाली (एम एस-13929एल) (एम आर-08679एल), एएमसी, 04 अप्रैल 2000, इन्टर्शिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नवीन त्रिपाठी (एम एस-13944ए) (एम आर-08680ए), एएमसी, 06 जनवरी 2000, इन्टर्शिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मीनाक्षी चोपडा (एम एस-14729एफ) (एम आर-08719एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2004 इन्टर्शिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अंशुल जैन (एम आर-08540एन), एएमसी, 06 फरवरी 2008

निहार अमेटा (एम आर-08574एफ), एएमसी, 06 फरवरी 2008

वासु निकुंज (एम आर-08582ए), एएमसी, 06 फरवरी 2008

बी एस राठौर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स से चि से (मा स)

थल सेना शाखा

सं. 104, दिनांक 6 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :-

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थाई नायब सूबेदार (ड्राईवर एमटी)

हवलदार मुन्ना लाल (सं. 13954402एफ अब जेसी-695865एम), 26 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार मानो राम (सं. 13955653एक्स अब जेसी-696152एन), 01 मई 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार राम चन्द्र साहू (सं. 13955809के अब जेसी-696141एफ), 06 मई 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महाबीर (सं. 13958270डब्ल्यू अब जेसी-696051ए), 03 जुलाई 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रह्लाद प्रसाद सिंह (सं. 13958835डब्ल्यू अब जेसी-696142के), 04 अक्टूबर 2007

हवलदार देबन सिंह (सं. 13959413एक्स अब जेसी-696052एच), 01 सितम्बर 2007

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13959419वाई अब जेसी-696053एल), 10 सितम्बर 2007

हवलदार देव नारायण मिश्रा (सं. 13959604एम अब जेसी-696054एन), 01 सितम्बर 2007

हवलदार सिगामनि एम (सं. 13959669ए अब जेसी-696055डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम प्रसाद (सं. 13960110पी अब जेसी-696110एफ), 05 नवम्बर 2007

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13960494पी अब जेसी-696143एम), 20 अक्टूबर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुनील दत्त नैथानी (सं. 13960621वाई अब जेसी-696111के), 21 नवम्बर 2007

हवलदार हरेन्द्र राय (सं. 13960616एन अब जेसी-696177ए), 26 अक्टूबर 2007

हवलदार मदन लाल (सं. 13960635वाई अब जेसी-696144पी), 05 नवम्बर 2007

हवलदार रविन्द्र नाथ कुँवर (सं. 13960828वाई अब जेसी-696145एक्स), 27 अक्टूबर 2007

हवलदार जसमन्त सिंह छवारी (सं. 13961240एक्स अब जेसी-696112एम), 31 अक्टूबर 2007

हवलदार सन्तोष कुमार (सं. 13961434एम अब जेसी-696113पी), 19 नवम्बर 2007

हवलदार अबध बिहारी शर्मा (सं. 13958688वाई अब जेसी-696146ए), 03 नवम्बर 2007

हवलदार राजमल (सं. 13961654डब्ल्यू अब जेसी-696114एक्स), 29 नवम्बर 2007

हवलदार महेश चन्द (सं. 13961695ए अब जेसी-696115ए), 06 नवम्बर 2007

हवलदार सुरेश उपाध्याय (सं. 13961678ए अब जेसी-696178एच), 02 जनवरी 2008

हवलदार धनन्जय सिंह (सं. 13961677एक्स अब जेसी-696116एच), 19 नवम्बर 2007

हवलदार राम मेहर (सं. 13961752ए अब जेसी-696147एच), 27 अक्टूबर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार कटवाटे गजन मानिक राव (सं. 13961762ए अब जेसी-696179एल), 11 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रोशन लाल (सं. 13961886पी अब जेसी-696117एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार फौजदार (सं. 13961930एक्स अब जेसी-696180ए), 15 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम औतार (सं. 13961941ए अब जेसी-696181एच), 01 जनवरी 2008

हवलदार मान सिंह (सं. 13961943एल अब जेसी-696182एल), 04 जनवरी 2008

हवलदार शीसा सिंह (सं. 13962005एक्स अब जेसी-696183एन), 02 जनवरी 2008

हवलदार केशव प्रसाद मेहता (सं. 13962064एक्स अब जेसी-696184डब्ल्यू), 07 जनवरी 2008

हवलदार पलवे सेशाराव रुस्तम (सं. 13962056एल अब जेसी-696185वाई), 01 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार सरवन कुमार (सं. 13962090एल अब जेसी-696186एफ), 11 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार सत्यवीर (सं. 13962104ए अब जेसी-696439एल), 03 मई 2008

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)।

कुलवन्त राणा
अवर सचिव

सं. 105, दिनांक 6 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 28 दिसम्बर 2007 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और

थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

रितु अग्रवाल (एमएस-14628एन)(एमआर-08683एन), एएमसी, 07 अप्रैल 2003 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 07 अप्रैल 2000 से हो जाएगी।

(इसमें डाक्टर ऑफ मेडीसीन के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

शीवानन्द अक्की (एमएस-14362एम)(एमआर-08681एच), एएमसी, 06 मार्च 2002।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अप्रैल 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

पी रामाकृष्णा प्रसाद (एमएस-14416एच)(एमआर-08682एल), एएमसी, 04 फरवरी 2002।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बसुन्धरा राय (एमएस-14657एच)(एमआर-08684डब्ल्यू), एएमसी, 07 जुलाई 2003 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 07 जनवरी 2003 से हो जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नारायण विजया प्राल्हाद (एमएस-14773एल)(एमआर-08686एफ), एएमसी, 17 फरवरी 2004 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 17 फरवरी 2001 से हो जाएगी।

(इसमें एमएस (इएनटी) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

दिनेश कुमार (एमएस-14778के)(एमआर-08687के), एएमसी, 17 फरवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

प्रतीक यादव (एमएस-14679एफ)(एमआर-08709एक्स), एएमसी, 04 दिसम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अमरपाल सिंह (एमएस-14463ए)(एमआर-08717डब्ल्यू), एएमसी, 19 दिसम्बर 2002।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बालासुब्रामन्यम के (एमएस-14598एफ)(एमआर-08718वाई), एएमसी, 01 अप्रैल 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

धिंणगोम शान्ती कुमार सिंह (एमएस-14809वाई) (एमआर-08720डब्ल्यू), एएमसी, 29 मार्च 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कुरुमपू गैरी प्रसाद (एमएस-14900पी)(एमआर-08692पी), एएमसी, 17 फरवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 फरवरी 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

रिजंबाना रियाज (एमएस-13725वाई)(एमआर-08678एच), एएमसी, 22 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 अक्टूबर 1998 से हो जाएगी।

(इसमें डिप्लोमा ओप्युलमोलोजी के लिए दी गई 12 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अमित महाजन (एमएस-14985डब्ल्यू)(एमआर-08698डब्ल्यू),
एएमसी, 12 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 सितम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

यादवीर गर्ग (एमएस-14986वाई)(एमआर-08699वाई), एएमसी,
12 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बीरेश राज (एमएस-14826वाई)(एमआर-08711पी), एएमसी,
29 मार्च 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

मोहन प्रीत बाली (एमएस-13929एल)(एमआर-08679एल),
एएमसी, 05 जनवरी 2000

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नवीन त्रिपाठी (एमएस-13944ए)(एमआर-08680ए), एएमसी, 06
जनवरी 2000

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मीनाक्षी चोपड़ा (एमएस-14729एफ)(एमआर-08719एफ),
एएमसी, 27 फरवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बी एस राठौर
मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स. से. चि. से. (मा. स.)

सं. 106, दिनांक 6 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री केहरी सिंह रोहिल्ला को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 अक्टूबर, 2008 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री किशोरी लाल मिगलानी को 01 नवम्बर, 2008 (पूर्वाह) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 107, दिनांक 6 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (नेवीगेटर) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायुसेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर जी जीतेन्दरन (24274) प्रशासनिक व स्क्वाड्रन लीडर अनुज भारद्वाज (24553) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर 04 जुलाई 2008 से स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु. के पत्र संख्या वा. से. मु./21901/24251/पीओ-3ई दिनांक 02 दिसम्बर 2008 द्वारा।

स्क्वाड्रन लीडर पी देशपाण्डे (24251) उड़ान (नेवीगेटर) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 04 जुलाई 2008।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर के उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायुसेना सूची में फ्लाईंग अफसर एम एम पुरुषोत्तमन (28225) प्रशासनिक व फ्लाईंग अफसर बी प्रशाथ (28068) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर 16 फरवरी 2005 से उड़ान प्रशिक्षण से निलम्बन वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु. के पत्र संख्या वा. से. मु./21901/28033/पीओ-3ई दिनांक 22 नवम्बर 2005।

फ्लाईंग अफसर एस एम भारथी (28033) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 16 फरवरी 2005 से।

पी सिंह
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3ई

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st February 2009

No. 96, dated 4th February 2009—The President is pleased to appoint Smt. Aruna B Sen, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education to Grade-1 (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 1.10.2008 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5.1/2008-CS I (U) dated the 11th September, 2008.

2. The appointment of the above officers as Under Secretaries (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

K MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 97, dated 4th February 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts w.e.f. 7th Jun 2008

The undermentioned Gentlemen Cadets of 10+2 TES 11 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 7th Jun 2008 under the provision of AI 3/99.

IC No., Name & Arm/Service

IC-70592M, Rahul Yadav, Engrs

IC-70593P, Dennis, EME

IC-70594X, Prarit Kapoor, AOC

IC-70595A, Akshay Ghorpade, Inf

IC-70596H, Sandeep Kumar, AOC

IC-70597L, Parinay Bansal, Inf

IC-70598N, Vishnu R Chikkorde, Arty

IC-70599W, Santosh Kumar Singh, ASC

IC-70600A, Ravish Dua, Arty

IC-70601H, Nitin Kumar Chaudhary, AOC

IC-70602L, Sutar Aloukik Vijay, Inf

IC-70603N, Avaneesh Goswami, Mech

IC-70604W, Mangesh Raghunath Deshmukh, Engrs

IC-70605Y, Sandipan Dey, Arty

IC-70606F, Jai Naithani, Sigs

IC-70607K, Rahul Srivastava, EME

IC-70608M, Kuldeep Singh Nagra, Sigs

IC-70609P, Anand Jha, Arty

IC-70610K, Aditya Prakash Maurya, EME

IC-70611M, Vikram Shahi, Inf

IC-70612P, Pushpendra Nath Ghosh, Engrs

IC-70613X, Rajan Singh, EME

IC-70614A, Marathe Akshay Arun, Arty

IC-70615H, Iqbaljeet Singh Dhillon, Inf

IC-70616L, Sanjay Kumar Yadav, Inf

IC-70617N, Mohit Arora, ASC

IC-70618W, V Sandeep, Inf

IC-70619Y, Sudhir Ranjan Behera, Inf

IC-70620N, Vibhor Jain, Engrs

IC-70621W, Shailesh Aneel Joshi, Arty

IC-70622Y, Prateek Mehta, Engrs

IC-70623F, Ashish Chhikara, ASC

IC-70624K, Mane Swapnil Satish, EME

IC-70625M, Shekhar Ohlan, AC

IC-70626P, Ankit Aggarwal, AAD

IC-70627X, Gaurav Thakur, EME

IC-70628A, Suraj Pal, Inf

IC-70629H, Sumit Kumar, Arty

IC-70630X, Vivek Singh Chauhan, Sigs

IC-70631A, Bhavy Kulshreshtha, Inf

IC-70632H, Vikramaditya Singh, AC

IC-70633L, Nitesh Bhardwaj, Sigs

IC-70634N, Rohit Chugh, EME

IC-70635W, Jha Abhishek Kumar, Mech

IC-70636Y, Ramakant Yadav, AC

IC-70637F, Manas Bajpai, Sigs

IC-70638K, Samrat Singh Dhindsa, Arty

IC-70639M, Vinay Gupta, Inf

IC-70640F, Sourav Goswami, Inf

IC-70641K, Varun Segan, AC

IC-70642M, Prateek Singh Chauhan, Inf

IC-70643P, Amal Sali, Inf

IC-70644X, Sanjeeb Mahapatra, Arty	9512060X, Hav, Mathew KT, (04992Y), AEC, RO
IC-70645A, R Krishna Chaitanya, Inf	9512078N, Hav, Virendra, (04993F), AEC, RO
IC-70646H, Kirti Kumar Sengar, Inf	9512146W, Hav, Sunil ML, (04994K), AEC, Education Officer
IC-70647L, Lokesh Ahlawat, Arty	6390527X, Hav, Kanakaraj Kolavattath (KV), (04995M),
IC-70648N, Ruchit Singh, Inf	ASC, RO
IC-70649W, Prashant Lalotra, Engrs	9512368L, Hav, Praveen, (04996P), AEC, RO
IC-70650L, Salabh Saxena, AAD	7241121F, Dfr, JK Amul Raj, (04997X), RVC, RO
IC-70651N, S Harshavardhanan, AOC	14615309F, Hav, Debasish Dey, (04998A), EME, RO
IC-70652W, Sougata Nandy, Sigs	15393143P, Hav, Narottam Sharma, (04999H), ASC, RO
IC-70653Y, P Aditya Deepak, Inf	6931573M, Hav, Akshaya Kumar Rout, (05000K), AOC, ICO
IC-70654F, Muraleekrishna K, Engrs	4075813W, Hav, Santosh Singh, (05001M), Garh Rif, RO
IC-70655K, Anand Vardhan, Engrs	6390091X, Hav, Anmol Singh, (05002P), ASC, RO
IC-70656M, Anshul Bahl, EME	13695160A, Hav, Prakash Patil, (05003X), Guards, RO
IC-70657P, Shayam ji Misra, AOC	9102119L, Hav, Ranjan Kumar, (05004A), JAK LI, RO
IC-70658X, Laichombam Manisana Singh, Int	13993377K, Hav, Pandhare Sharad Prakash, (05005H), ASC,
IC-70659A, Pradeep Kumar, Arty	RO
IC-70660P, Pisal Minar Sunil, Inf	6391485H, Hav, Sojan Joseph, (05006L), ASC, RO
IC-70661X, Bhaskar Singh, Arty	14635635L, NK, Girish SB, (05007N), EME, RO
IC-70662A, Vinay Chandrashekar Kargudri, EME	
IC-70663H, Prashant Singh, ASC	
IC-70664L, Karthick M, Inf	
IC-70665N, Chavan Rahul Vishnu, Inf	
IC-70666W, Indra Pratap Singh, AC	
IC-70667Y, A Riaz Khan, Arty	
IC-70668F, Nitin Ravindran, Sigs	

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

The undermentioned JCOs/NOCs are granted Permanent Commission (Special List) in the categories as shown against their names in the rank of Lt under the provisions of AI 85/74 with effect from 13th Aug 2008 (FN) as per inter-se-seniority given below. JCOs mentioned in this Gazette having Eight years combined service as JCO and the ranks are also granted two years ante-date seniority for pay only under the provisions of sub para 7(c) of AI 85/74 :—

Army No., Rank, Name, SI No, Parent & Arm /Service & Category

IC-325842P, Sub Maj, Raj Kumar Chauhan, (04987N), Engrs, AEE B/R & ASW

IC-325835Y, Sub, Ram Pal Singh, (04988W), Engrs, AEE EM/TEM

IC-330578W, Nb Sub, Bobade Avinash Naryan Rao, (04989Y), Engrs, AEE B/R & ASW

IC-376261A, Nb Sub, Sanjay Mishra, (04990N), Sigs, TOST

IC-270221N, Nb Sub, Gratius CV, (04991W), Arty, RO

The undermentioned 103 (One Hundred Three) Gentleman Cadets of 105 Technical Graduates Course (TGC) and 16 University Entry Scheme (UES) Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 07 Jun 2008 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 11 Jun 2006 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, IC No. & Arm/Service

U/825, Kanishka Singh Siwach, 70669K, EME

U/797, Chaitanya Sangwan, 70670Y, EME

U/798, Mahendra Singh Tomar, 70672K, EME

U/826, Avinash Deshmukh, 70673M, Engrs

U/757, Gaurav, 70674P, Engrs

U/793, Sonawane Dhananjay Sudhir, 70675X, EME

U/751, Manoj Kumar Malik, 70676A, Engrs

U/766, Pavitter Chand Cimer, 70677H, Sigs

T/6484, Vikas Agnihotri, 70678L, AAD

U/796, Tarunpreet Singh, 70679N, EME

U/769, Amit Vasudeva, 70680H, Sigs

U/735, Amit Bhat, 70681L, Engrs

T/6523, Kartik Natarajan, 70682N, EME

T/6506, Vikas Mishra, 70683W, AAD	U/786, Kishan Kant Gautam, 70724P, Engrs
U/831, Ishwar Prasad Meena, 70684Y, EME	T/6528, Akhil Saklani, 70725X, Engrs
U/738, Tapan Nauriyal, 70685F, Engrs	U/807, Manoj Gorai, 70726A, Sigs
T/6502, Rahul Pankaj, 70687M, Inf	U/834, Rakesh Kumar Sharma, 70727H, EME
U/811, Abhijai, 70688P, Engrs	U/762, Sarthak Mehta, 70728L, EME
U/819, Vaibhav Patodia, 70689X, EME	U/761, Sidharth Bhanot, 70730H, Inf
T/6515, Vishal Singh Mehta, 70690M, Sigs	U/813, Aman Kataria, 70731L, EME
U/739, Prashant Chandra Sarkar, 70691P, Engrs	U/764, Gaurav Anand, 70732N, Engrs
U/788, Vipin Singh Randhawa, 70692X, Engrs	U/743, Vishal Sharma, 70733W, Sigs
T/6511, Amarpreet Singh Sidhu, 70693A, Engrs	U/828, Yadav Rajnath Kedarnath, 70734Y, Engrs
U/801, Hitesh Kumar Bhardwaj, 70694H, Engrs	U/746, Devender Singh Shekhawat, 70735F, Sigs
T/6524, Mandeep Singh Virk, 70695L, Engrs	U/795, Sujith Babu, 70737M, EME
U/776, Praveen Nair, 70696N, EME	T/6500, Pise Bharat Suresh, 70738P, Engrs
U/755, Dhurjoti Sankar Chakrabarty, 70697W, Engrs	U/749, Sumant Yadav, 70739X, Engrs
T/6507, Gulbag Singh Sodhi, 70698Y, AAD	U/846, Rakinder Singh Bhatia, 70740M, Sigs
U/773, Ompal Tomar, 70699F, Sigs	T/6531, Rajiv G Mehra, 70741P, AAD
U/804, Karan Deep Joshi, 70700L, EME	U/820, Sumit Sharad Khare, 70742X, Sigs
U/833, Karan Mehta, 70701N, EME	U/829, Jitender Pareek, 70743A, Engrs
U/741, Prafulchandra Admane, 70702W, Engrs	U/787, Karandeep Khatri, 70744H, Engrs
U/774, Vineet Vasudev Sharma, 70703Y, Sigs	U/817, Sudhir Singh Guleria, 70745L, Engrs
T/6520, Phaltane Anand Nandkumar, 70704F, Int	T/6527, Vineet Singh Pathania, 70746N, AOC
T/6509, Dimesh Sharma, 70706M, Engrs	U/744, Aditya Gaur, 70747W, Engrs
T/6504, Raj Kumar R, 70707P, AAD	T/6521, Kuldeep Singh, Yadav, 70748Y, Engrs
U/810, Vishal Rana, 70708X, EME	U/785, Nishan Singh, 70749F, EME
T/6503, Baljeet Singh, 70710P, Engrs	U/782, Kapil Kumar Kansal, 70750W, EME
U/822, Rakesh Khattar, 70711X, Engrs	U/844, Gurpeet Singh, 70751Y, Engrs
T/6534, Gaurav Prashar, 70712A, Engrs	U/847, Manjeet Singh, 70752F, Sigs
T/6530, Sanchit Rathore, 70713H, EME	U/772, Mohammad Rakib, 70753K, Engrs
U/839, Pankaj Sharma, 70714L, EME	U/752, Aniruddha Sikdar, 70754M, EME
U/841, Rahul Saini, 70715N, Sigs	T/6512, Sushant Singh, 70755P, EME
T/6516, Akshay Pant, 70716W, Sigs	U/745, Gaurav Ashdhir, 70756X, Engrs
T/6529, Vinay Sharma, 70717Y, Engrs	U/830, Vijay Patel, 70757A, Engrs
T/6513, Naorem Bobotombi, 70718F, EME	T/6501, Saurabh Roy, 70758H, Sigs
U/837, Sathish Alias Narayanasamy S, 70719K, Engrs	U/791, Ajith J Babu, 70759L, Sigs
U/781, Sreejit R Nair, 70720Y, EME	U/794, Ragesh Kumar R, 70760/A, Engrs
U/799, Narendra Sharma, 70721F, Engrs	U/815, Amrinder Singh, 70761H, Engrs
U/737, Amit D Meshram, 70722K, Engrs	U/758, Saurabh Vij, 70762L, EME
U/770, Sushil Chand, 70723M, Engrs	U/802, Neeraj Kumar Pandey, 70763N, Sigs
	U/6519, Lakshmi Narayanan J, 70764W, Sigs

U/777, Wrickdev Ghosh, 70765Y, Sigs

T/6508, Amit Kaul, 70766F, EME

T/6536, Rohit Singh Baghel, 70767K, AAD

U/832, Puneet Batra, 70768M, Engrs

U/753, Kabir Kohli, 70769P, EME

U/747, Rex Philip, 70770K, EME

U/765, Jena Ashwinkumar Abhimanyu, 70771M, EME

U/740, Akshay Nashikkar, 70772P, EME

U/823, Pushpender Singh, 70773X, Engrs

T/6510, Nishant Kumar, 70774A, AOC

U/821, Deepesh Chandra Pant, 70775H, Sigs

U/806, Anshuman Agrahri, 70776L, Sigs

T/6538, Kamal Nain Singh, 70777N, EME

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 102 (One Hundred Two) GCs of 105 Technical Graduates and 16 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course:—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service, Date of SSC (on probation)

105 Technical Graduates Course

(T-6500), Pise Bharat Suresh, (SS-43024X), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6501), Saurabh Roy, (SS-43025A), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6502), Rahul Pankaj, (SS-43026H), EME, 16 Jul 2007

(T-6503), Baljeet Singh, (SS-43027L), EME, 16 Jul 2007

(T-6504), Raj Kumar R, (SS-43028N), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6506), Vikas Mishra, (SS-43030L), EME, 16 Jul 2007

(T-6507), Gulbag Singh Sodhi, (SS-43031N), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6508), Amit Kaul, (SS-43032W), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6509), Dinesh Sharma, (SS-43033Y), EME, 16 Jul 2007

(T-6510), Nishant Kumar, (SS-43034F), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6511), Amarpreet Singh Sidhu, (SS-43035K), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6512), Sushant Singh, (SS-43036M), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6513), Naorem Bobotombi (SS-43037P), EME, 16 Jul 2007

(T-6515), Vishal Singh Mehta, (SS-43039A), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6516), Akshay Pant (SS-43040P), EME, 16 Jul 2007

(T-6519), Lakshmi Narayanan J (SS-43043H), EME, 16 Jul 2007

(T-6520), Phaltane Anand Nandkumar, (SS-43044L), EME, 16 Jul 2007

(T-6521), Kuldeep Singh Yadav, (SS-43045N), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6523), Kartik Natarajan, (SS-43047Y), EME, 16 Jul 2007

(T-6524), Mandeep Singh Virk (SS-43048F), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6527), Vineet Singh Pathania (SS-43050Y), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6528), Akhil Saklani, (SS-43051F), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6529), Vinay Sharma, (SS-43052K), Engrs, 16 Jul 2007

(T-6530), Sanchit Rathore, (SS-43053M), EME, 16 Jul 2007

(T-6531), Rajiv G Mehra, (SS-43054P), Sigs, 16 Jul 2007

(T-6534), Gaurav Prashar (SS-43057H), EME, 22 Jul 2007

(T-6536), Rohit Singh Baghel (SS-43059N), Engrs, 30 Jul 2007

(T-6538), Kamal Nain Singh, (SS-43061L), Engrs, 01 Aug 2007

16 University Entry Scheme Course

(U-735), Amit Bhat, (SS-43067M), Engrs, 01 Jul 2006

(U-737), Amit D Meshram (SS-43069X), EME, 05 Jul 2006

(U-738), Tapan Nauriyal, (SS-43070M), Engrs, 16 Jul 2007

(U-739), Prashant Chandra Sarkar, (SS-43071P), EME, 18 Jul 2006

(U-740), Akshay Nashikkar (SS-43072X), Engrs, 16 Jul 2007

(U-741), Praful Chandra Admane, (SS-43073A), EME, 16 Jul 2007

(U-743), Vishal Sharma (SS-43075L), Sigs, 01 Aug 2006

(U-744), Aditya Gaur, (SS-43076N), EME, 16 Jul 2007

(U-745), Gaurav Ashdhir (SS-43077W), EME, 16 Jul 2007

(U-746), Devender Singh Shekhawat, (SS-43078Y), Sigs, 16 Jul 2007

(U-747), Rex Philip (SS-43079F), EME, 16 Jul 2007

(U-749), Sumant Yadav, (SS-43081Y), Sigs, 01 Aug 2006

(U-751), Manoj Kumar Malik, (SS-43083K), Sigs, 16 Jul 2007

(U-752), Anirudha Sikdar, (SS-43084M), Sigs, 01 Jul 2006

(U-753), Kabir Kohli, (SS-43085P), Sigs, 16 Jul 2007

(U-755), Dhurjoti Sankar Chakrabarty, (SS-43087A), Sigs, 16 Jul 2007

- (U-757), Gaurav, (SS-43089L), Sigs, 01 Jul 2006
- (U-758), Saurabh Vij, (SS-43090A), EME, 16 Jul 2007
- (U-761), Sidharth Bhanot (SS-43093N), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-762), Sarthak Mehta, (SS-43094W), Engrs. 01 Jul 2006
- (U-764), Gaurav Anand, (SS-43096F), EME, 16 Jul 2007
- (U-765), Jena Ashwinkumar Abhimanyu. (SS-43097K), Engrs, 01 Jul 2006
- (U-766), Pavitter Chand Cimer, (SS-43098M), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-769), Amit Vasudeva, (SS-43101F), Sigs, 01 Aug 2006
- (U-770), Sushil Chand, (SS-43102K), EME, 16 Jul 2007
- (U-772), Mohammad Rakib, (SS-43104P), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-773), Ompal Tomar, (SS-43105X), EME, 16 Jul 2007
- (U-774), Vineet Vasudev Sharma, (SS-43106A), EME, 16 Jul 2007
- (U-776), Praveen Nair, (SS-43108L), EME, 16 Jul 2007
- (U-777), Wrickdev Ghosh, (SS-43109N), Sigs, 25 Jul 2006
- (U-781), Srejit R Nair, (SS-43113W), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-782), Kapil Kumar Kansal, (SS-43114Y), Sigs, 21 Jul 2006
- (U-785), Nishan Singh, (SS-43117M), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-786), Kishan Kant Gautam, (SS-43118P), EME, 16 Jul 2007
- (U-787), Karandeep Khatri, 43119X, Sigs, 16 Jul 2007
- (U-788), Vipin Singh Randhawa (SS-43120M), Engrs, 01 Aug 2006
- (U-791), Ajith J Babu, (SS-43123A), EME, 16 Jul 2007
- (U-793), Sonawane Dhananjay Sudhir, (SS-43125L), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-794), Ragesh Kumar R (SS-43126N), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-795), Sujith Babu, (SS-43127W), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-796), Tarunpreet Singh, (SS-43128Y), EME, 16 Jul 2007
- (U-797), Chaitanya Sangwan (SS-43129F), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-798), Mahendra Singh Tomar (SS-43130W), Engrs, 16 Jul 2006
- (U-799), Narendra Sharma, (SS-43131Y), EME, 16 Jul 2007
- (U-801), Hitesh Kumar Bhardwaj, (SS-43133K), EME, 16 Jul 2007
- (U-802), Neeraj Kumar Pandey, (SS-43134M), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-804), Karan Deep Joshi, (SS-43136X), Sigs, 15 Jul 2006
- (U-806), Anshuman Agrahri, (SS-43138H), Sigs, 01 Aug 2006
- (U-807), Manoj Gorai, (SS-43139L), EME, 05 Aug 2006
- (U-810), Vishal Rana, (SS-43142L), Sigs, 17 Oct 2006
- (U-811), Abhijai, (SS-43143N), EME, 16 Jul 2007
- (U-813), Aman Kataria, (SS-43145Y), Sigs, 17 Jul 2006
- (U-815), Amrinder Singh, (SS-43147K), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-817), Sudhir Singh Guleria, (SS-43149P), Engrs, 01 Jul 2006
- (U-819), Vaibhav Patodia (SS-43151M), EME, 24 Jul 2006
- (U-820), Sumit Sharad Khare, (SS-43152P), EME, 16 Jul 2007
- (U-821), Deepesh Chandra Pant, (SS-43153X), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-822), Rakesh Khatkar, (SS-43154A), EME, 03 Jul 2006
- (U-823), Pushpender Singh, (SS-43155H), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-825), Kanishka Singh Siwach, (SS-43157N), EME, 31 Jul 2006
- (U-826), Avinash Deshmukh, (SS-43158W), Sigs, 01 Jul 2006
- (U-828), Yadav Rajnath Kedarnath, (SS-43160N), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-829), Jitender Pareek, (SS-43161W), Sigs, 01 Oct 2006
- (U-830), Vijay Patel, (SS-43162Y), EME, 16 Jul 2007
- (U-831), Ishwar Prasad Meena, (SS-43163F), Engrs, 01 Jul 2006
- (U-832), Puneet Batra, (SS-43164K), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-833), Karan Mehta, (SS-43165M), EME, 16 Jul 2007
- (U-834), Rakesh Kumar Sharma, (SS-43166P), Engrs, 16 Jul 2007
- (U-837), Sathish Alias Narayanasamy S , (SS-43169H), Engrs, 05 Jul 2006
- The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.
- (U-839), Pankaj Sharma, (SS-43171A), EME, 01 Jul 2006
- (U-841), Rahul Saini, (SS-43173L), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-844), Gurpreet Singh, (SS-43176Y), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-846), Rakinder Singh Bhatia, (SS-43178K), Sigs, 16 Jul 2007
- (U-847), Manjeet Singh, (SS-43179M), Sigs, 16 Jul 2007
- The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.
- (ARMY BRANCH)
- No. 98, dated 04th February 2009—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.
- REGULAR ARMY
(ARMY DENTAL CORPS)
SHORT SERVICE COMMISSION
CONFIRMATION
- Maj (MS) Anu Aghi (DS-12071N), 12 Jul 2002

Capt (Ms) Hema Ramdas (DS-12126M), 25 Sep 2004

Capt Kamal Verma (DS-12141F), 07 Apr 2005

Capt Narender Singh (DS-12163A), 01 Jun 2005

Capt Navneet Vyas (DS-12173K), 28 Sep 2005

Capt Atul Gupta (DS-12186F), 09 Mar 2006

Capt SVS Bhat (DS-12189P), 10 Mar 2006

Capt VK Dhyani (DS-12224M), 19 May 2006

Capt A Navin Kumar (DS-12236F), 21 Mar 2007

The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two year in terms of AI 37/78 as amended.

Maj (Ms) VV Malali, (DR-10592H), 29 May 2002

Capt Anil Kumar S (DR-10601Y), 25 Feb 2004

Capt Navin Kaul (DR-10612L), 23 Dec 2004

ARMY BRANCH

No. 99, dated 04 February 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Surg RADM (& equivalent)

DK Khanna (MR-04934P) (75972), 01 May 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2008

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

Mandeep Singh (MR-03516N), 24 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2008

ARMY BRANCH

No. 100, the 5th February 2009—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm & D. O. subs Maj Gen.

IC-33052, Brig SK Chaudhury, Int, 06 Mar 2008 with seniority from 01 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33235, Brig Deepinder Singh, 73 AR, 01 Jan 2008 with seniority from 01 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33241, Brig BPS Hundal, AOC, 01 Jan 2008 with seniority from 01 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30322, Brig YV Mohan, EME, 02 Feb 2008 with seniority from 01 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30326, Brig AK Singh, Bihar, 24 Jan 2008 with seniority from 01 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30331, Brig TS Handa, Para, 25 Jan 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30333, Brig P Paul, VSM, 4 GR, 25 Jan 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30337, Brig VK Bhatt, SM, VSM, Engrs, 25 Jan 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30342, Brig Abhijit Guha, Arty (GC), 25 Jan 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30351, Brig Daibir Singh, 5 GR, 01 Feb 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30353, Brig SA Hasnain, VSM*, Garh Rif, 01 Feb 2008 with seniority from 02 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30380, Brig NS Vidyarthi, Arty, 01 Mar 2008 with seniority from 03 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30389, Brig Sanjiv Chachra, Rajput, 21 May 2008 with seniority from 03 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30392, Brig RP Dastane, Arty (GC), 21 May 2008 with seniority from 03 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30400, Brig A Srivastava, AAD, 14 Mar 2008 with seniority from 03 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30406, Brig Puri Vikram, AAD (GC), 21 May 2008 with seniority from 03 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30407, Brig MN Kashid, Arty, 01 Mar 2008 with seniority from 04 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30408, Brig VK Narula, Arty, 01 Mar 2008 with seniority from 04 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30464, Brig Vardhan RH, Arty (GC), 21 May 2008 with seniority from 04 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30465, Brig Nirmolak Singh, EME, 01 Mar 2008 with seniority from 04 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30482, Brig Bhatia Vinod, Para, 21 May 2008 with seniority from 05 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30485, Brig Umong Sethi, Sikh, 21 May 2008 with seniority from 05 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30503, Brig JP Nehra, Madras, 21 May 2008 with seniority from 05 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30507, Brig Chopra Sanjeev, Guards, 04 Jun 2008 with seniority from 05 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30516, Kuldip Singh, AAD, 08 Apr Brig 2008 with seniority from 05 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30521, Brig SK Vijeshwer, Arty (GC), 04 Jun 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30571, Brig Rajeew Datt, Engrs, 01 May 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30574, Brig JP Singh, SC, AAD, 01 May 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30612, Brig SS Nair, AEC, 01 May 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-31917, Brig SM Mehta, SM, EME, 01 May 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-31968, Brig Jatender Singhla, EME, 27 May 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33450, Brig DL Chowdhary, VSM, Jat, 04 Jun 2008 with seniority from 06 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33454, Brig OP Soni, Arty, 01 Jul 2008 with seniority from 07 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33520, Brig Kishan Singh, 9 GR, 01 Jul 2008 with seniority from 07 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-33554, Brig VK Dhall, Arty, 01 Jul 2008 with seniority from 07 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-36711, Brig SN Swamy, Engrs, 01 Jul 2008 with seniority from 07 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30682, Brig Manvender Singh, Guards, 18 Jul 2008 with seniority from 08 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30683, Brig Rameshwar Yadav, Raj Rif, 01 Aug 2008 with seniority from 08 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30686, Brig MA Naik, SM, Engrs, 01 Aug 2008 with seniority from 08 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30687, Brig Sanjiv Langer, 69AR, 22 Aug 2008 with seniority from 08 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30692, Brig AK Kalia, EME, 01 Sep 2008 with seniority from 09 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30697, Brig SV Bhide, VSM, Para, 01 Sep 2008 with seniority from 09 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30701, Brig AI Parnaik, Engrs, 01 Sep 2008 with seniority from 09 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30702, Brig P Campose, Mech Inf, 01 Sep 2008 with seniority from 09 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30705, Brig AK Choudhary, Mahar, 01 Sep 2008 with seniority from 09 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30722, Brig V Sharma, Engrs, 01 Oct 2008 with seniority from 10 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30783, Brig Malhotra Anil, ASC, 01 Oct 2008 with seniority from 10 Jul 2007 without effect on pay and pension.

IC-30817, Brig AK Chaturvedi, Engrs, 01 Oct 2008 with seniority from 10 Jul 2007 without effect on pay and pension.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be substantive Brigadier

IC No., Rank, Name, Arm & Date of subs Rank

IC-36913, Col LK Rampal, Jat, 01 Aug 2007 with seniority from 01 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-34509, Col PD Gupta, Sigs, 01 Jul 2007 with seniority from 01 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37017, Col JS Soin, Arty, 01 May 2007 with seniority from 01 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37022, Col S Kulkarni, SC, SM, Kumaon, 01 May 2007

IC-37028, Col RPS Mann, Dogra, 01 May 2007

IC-37061, Col SA Ali, SM, Kumaon, 02 May 2007

IC-37077, Col K Dev, VSM, Dogra, 02 May 2007

IC-37084, Col SK Manchanda, AOC, 01 Aug 2007 with seniority from 02 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37101, Col AS Cheema, Armd, 02 May 2007

IC-37673, Col KS Rao, SM, Engrs, 02 May 2007

IC-35108, Col Narendra Singh, Engrs, 03 May 2007

IC-35109, Col RV Kanitkar, Armd, 03 May 2007

IC-35110, Col Venu Gopal Menon, Engrs, 03 May 2007

IC-35111, Col RK Singh, Kumaon, 03 May 2007

IC-35112, Col S Sridhar, Armd, 03 May 2007

IC-35114, Col D Kapur, Mech Inf, 04 May 2007

IC-35115, Col Jagbir Singh, Mech Inf, 04 May 2007

IC-35118, Col SP Nawathe, Engrs, 04 May 2007

IC-35122, Col BS Chauhan, SM, Kumaon, 04 May 2007

IC-35124, Col PM Cariappa, VSM, Sigs, 01 Jul 2007 with seniority from 05 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35130, Col S Ganpathy, Mech Inf, 05 May 2007

IC-35134, Col Rakesh Bassi, SM, Engrs, 05 May 2007

IC-35136, Col DS Negi, Kumaon, 05 May 2007

IC-35137, Col PM Kariz, Mech Inf, 05 May 2007

IC-35140, Col BC Sarmah, SM, Garh Rif, 06 May 2007

- IC-35141, Col TS Datta, Arty, 06 May 2007
- IC-35142, Col Rahul Gupta, AAD, 01 Jul 2007 with seniority from 06 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35144, Col Rakesh Nijhawan, AAD, 06 May 2007
- IC-35145, Col JS Mathru, VSM, EME, 01 Jul 2007 with seniority from 06 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35150, Col Niraj Pathak, Armd, 06 May 2007
- IC-35153, Col DK Purohit, SM, Mahar, 01 Aug 2007 with seniority from 07 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35160, Col AK Siwach, Jak Rif, 07 May 2007
- IC-35163, Col SK Aneja, EME, 01 Jul 2007 with seniority from 07 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35167, Col Yashwant Singh, EME, 01 Aug 2007 with seniority from 07 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35171, Col R Singh, 3 GR, 07 May 2007
- IC-35173, Col RJ Noronha, Rajput, 08 May 2007
- IC-35183, Col K Singh, Dogra, 08 May 2007
- IC-35185, Col SS Malik, Arty, 08 May 2007
- IC-35188, Col RK Sharma, SM, Jak Li, 08 May 2007
- IC-35189, Col Ajay Kohli, Sigs, 01 Jul 2007 with seniority from 08 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35199, Col UK Rai, Bihar, 09 May 2007
- IC-35201, Col AK Sahgal, AAD, 09 May 2007
- IC-35204, Col US Bawa, Vrc, Jat, 01 Aug 2007 with seniority from 09 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35206, Col KH Sing, YSM, Rajput, 09 May 2007
- IC-35224, Col AK Kalia, AOC, 01 Aug 2007 with seniority from 09 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35226, Col KG Krishna, VSM, Gren, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35235, Col GP Singh, ASC, 01 Jul 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35237, Col J Anantharaman, Sikh, 01 Jul 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35246, Col J Verma, VSM, Dogra, 01 Jul 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35249, Col GS Chima, Armd, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35250, Col AK Nagpal, Armd, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35258, Col H Gopalan, AAD, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35261, Col KNP Nair, SM, Bihar, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35266, Col KP Chand, Arty, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35270, Col PK Jhamb, AOC, 01 Sep 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35272, Col JK Kurian, Int, 01 Aug 2007 with seniority from 10 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35282, Col J Singh, Kumaon, 01 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35284, Col Vikash Joshi, Arty, 01 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35290, Col S Uppal, VSM, Kumaon, 02 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35307, Col VN Prasad, SM, Para, 06 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35317, Col SK Patil, ASC, 15 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35318, Col Ashok Sharma, AOC, 22 Aug 2007 with seniority from 11 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35340, Col BNP Chandran, Rajput, 29 Aug 2007 with seniority from 12 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35365, Col Rajiv Johri, Arty, 29 Aug 2007 with seniority from 12 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35375, Col P Mandotra, Punjab, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-35376, Col Gautam Deb, Int, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-39034, Col SK Raina, Engrs, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-39056, Col Sukhvir Sharma, Engrs, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.
- IC-37189, Col BS Sambyal, SM, Para, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37190, Col RM Sharma, ASC, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37201, Col PS Sekhawat, ASC, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37202, Col KC Pant, MLI, 01 Sep 2007 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37204, Col B Poonen, Mahar, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37209, Col MC Chauhan, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37210, Col S Padmanabh, Rajput, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37211, Col DK Dadwal, SM, Sikh, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37219, Col AKS Chauhan, Arty, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37223, Col A Chander, Dogra, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37230, Col AK Sharma, Jak Li, 01 Sep 2007 with seniority from 14 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37233, Col OP Yadav, Bihar, 13 Sep 2007 with seniority from 15 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37242, Col KS Rana, SC, SM, Sikh, 13 Sep 2007 with seniority from 15 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37247, Col GS Chandel, YSM, Bihar, 15 Sep 2007 with seniority from 15 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-37278, Col GP Singh, Armd, 23 Sep 2007 with seniority from 16 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35471, Col B Rawat, SM, VSM, 11 GR, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35479, Col BS Negi, YSM, Assam, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35480, Col S Singh Chikara, Jak, Rif, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35481, Col R Narayanan, Armd, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35482, Col S Kaushik, Engrs, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35486, Col SC Rang, Jak Rif, 01 Oct 2007 with seniority from 17 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35487, Col NPS Hira, Sikh Li, 01 Oct 2007 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35494, Col S Saha, VSM**, Assam, 01 Oct 2007 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35496, Col SN Yadav, Arty (GC), 01 Oct 2007 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35499, Col MR Babu, SM, Rajput, 01 Oct 2007 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35500, Col FS Karamset, SM, Arty, 01 Oct 2007 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35501, Col KA Muthanna, Garh Rif, 18 Oct 2007 with seniority from 19 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35505, Col Amar Krishna, Engrs, 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35506, Col Atul Mehra, Sigs, 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35511, Col Bharat Bhushan, Mahar, 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35513, Col Kulwant Singh, Arty, 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35515, Col BS Das, Kumaon, 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35521, Col Sanjaya Saran, YSM, Arty (GC), 01 Nov 2007 with seniority from 20 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35527, Col VK Yadav, SC, Arty, 01 Nov 2007 with seniority from 21 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35538, Col N Bali, SM, Bihar, 01 Nov 2007 with seniority from 21 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35550, Col Sanjeev Shukla, Armd, 01 Nov 2007 with seniority from 21 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35559, Col Harinder Bhanot, EME, 01 Nov 2007 with seniority from 21 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35563, Col BK Jain, Jak Li, 05 Nov 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35566, Col MJ Mathews, Arty, 23 Nov 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35581, Col C Prakash, Arty, 01 Dec 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35586, Col Bhupinder Singh, Mech Inf, 01 Dec 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35591, Col MP Singh, ASC, 01 Dec 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35602, Col AB Shivane, Armd, 01 Dec 2007 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35625, Col AK Sehgal, Arty, 13 Dec 2007 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35628, Col DK Singh, EME, 28 Dec 2007 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35637, Col R Badrinarayan, AOC, 01 Jan 2008 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35643, Col V Narayanan, Garh Rif, 01 Jan 2008 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35646, Col AP Singh, Engrs, 01 Jan 2008 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35650, Col BC Mathews, Kumaon, 01 Jan 2008 with seniority from 24 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35655, Col T George, Assam, 01 Jan 2008 with seniority from 24 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35667, Col Gautam Kar, Arty (GC), 01 Jan 2008 with seniority from 24 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35681, Col SD Bhandare, Arty, 01 Jan 2008 with seniority from 24 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35692, Col MPS Baweja, Sigs, 01 Jan 2008 with seniority from 25 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35697, Col PS Mander, Punjab, 01 Jan 2008 with seniority from 25 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35706, Col SS Sirohi, ASC, 01 Jan 2008 with seniority from 25 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35717, Col G Srinivasan, Arty, 01 Feb 2008 with seniority from 26 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35731, Col SB Asthana, SM, Assam, 01 Feb 2008 with seniority from 26 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35746, Col HS Puri, ASC, 01 Feb 2008 with seniority from 26 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35760, Col YS Sirohi, Engrs, 01 Feb 2008 with seniority from 26 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35782, Col J Saini, Jat, 01 Feb 2008 with seniority from 26 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35833, Col P Chakarborty, AEC, 01 Feb 2008 with seniority from 27 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35874, Col CS Nair, Jag, 01 Feb 2008 with seniority from 27 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-35724, Col MS Sandhu, Para, 01 Feb 2008 with seniority from 27 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-39398, Col AK Wahi, Engrs, 01 Feb 2008 with seniority from 27 May 2007 without effect on pay and pension.

IC-39410, Col Debarchan, Engrs, 01 Feb 2008 with seniority from 27 May 2007 without effect on pay and pension.

N K PHUKAN
Dir

No. 101, dated 05 February 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col/Col (TS) to be Col (Selection & equivalent)

S Bhatnagar (MR-04735F), 18 Mar 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2006.

PK Thakur (MR-04994K), 20 Jun 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Dec 2007.

SC Verma (MR-05886M), 29 May 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2008.

R Ravikumar (MR-05261X), 01 Apr 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jan 2008.

SC Gupta (MR-05043Y), 01 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2007

N Kumar (MR-05236Y), 20 May 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Dec 2007.

RBM Krishna (MR-05609F), 21 Apr 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Dec 2007.

Rajesh Kumar (MR-05403K), 29 Apr 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Dec 2007.

SS Vattaparambil (MR-05377N), 08 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jun 2008.

R Girish (MR-05378W), 16 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jun 2008.

A Chattoraj (MR-05382Y), 01 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Jun 2008.

SK Jena (MR-05376N), 01 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Jun 2008.

V Kumar (MR-05299F), 01 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jul 2008.

SK Singh (MR-05303Y), 01 Sep 2008

Arun Chaudhry (MR-05781H), 23 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2007.

DK Badwal (MR-06128F), 27 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jun 2008.

R Kochhar (MR-06133M), 05 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jun 2008.

Virendra Kumar (MR-06093W), 04 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Jun 2008.

S Charkraberty (MR-05305K), 01 Sep 2008

S Vardhan (MR-05307P), 01 Oct 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Sep 2008.

JS Sabharwal (MR-05315N), 01 Oct 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Sep 2008.

Surg Cdr to be Surg Capt (Selection & equivalent)

Surg Capt KI Mathai (MR-04779Y) (75298), 11 Mar 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Dec 2008

Surg Capt CS Naidu (MR-05133A) (75343), 01 Mar 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Dec 2008

Surg Capt MSR Rote (MR-05193P) (20200), 11 May 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 Dec 2008

Lt Col (& equivalent) to be GP Capt (& equivalent)

R C Balasundaram (MR-04110M) (AF-29423), 01 Sep 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Aug 2005.

BS RATHORE
Maj Gen DGAFMS (F/R)

No. 102, dated 05 February 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

V-00372, JS Dharmadheran, RVC, 01 Aug 2006

V-00373, MA Keikar, RVC, 01 Aug 2006

V-00376, N Shariff RVC, 01 Aug 2006

V-00377, AK Shukla RVC, 01 Aug 2006

V-00383, Dev Raj, RVC, 01 Aug 2006

IC-37877, Dinesh Sharma, Inf, 01 Apr 2006

IC-40320 S Prasad, Arty, 01 Apr 2006

IC-40426, A Jha, AAD, 01 Apr 2006

IC-40615, Alok Maggu, Engrs, 01 Apr 2006

IC-37943 D Thakur, AC, 01 Apr 2006

IC-41219, K Nandakumaran, Inf, 01 Apr 2006

IC-41245, Bharat Malik, Engrs, 01 Apr 2006

IC-41326, PR Vesangi, Arty, 01 Apr 2006

IC-45114, VSM Jadeja, Inf, 01 Apr 2006

IC-45125, JS Bisht, Inf, 01 Apr 2006

IC-41527, RS Bhanwala, Engrs, 01 Apr 2006

IC-41602, KC Dixit, Sigs, 01 Apr 2006

IC-41652, Virinder Singh, Arty, 01 Apr 2006

IC-45175, Randhir Singh, M/Inf, 01 Apr 2006

IC-45177, SS Sandhu, AC, 01 Apr 2006

IC-45183, Rajeev Kumar, Inf, 01 Apr 2006

IC-45186, VP Singh, Arty, 01 Apr 2006

IC-45187, AS Grewal, Arty, 01 Apr 2006

IC-45188, S Dhindaw, ASC, 01 Apr 2006

IC-45191, RS Shekhawat, Inf, 01 Apr 2006

IC-45193, Atul Kaushik, Inf, 01 Apr 2006

IC-45194, GP Vasant, Arty, 01 Apr 2006

IC-45200, R Kumar, JAG, 01 Apr 2006

IC-45210, Anil Joshi, Inf, 01 Apr 2006

IC-45211 R Kundra, Guards, 01 Apr 2006

IC-45216 MS Rathore, EME, 01 Apr 2006

IC-45221, N Kumar, Arty, 01 Apr 2006

IC-45232, SP Singh, AAD, 01 Apr 2006

IC-45236, JS Chauhan, AC, 01 Apr 2006

IC-45238, Thomas Sabu, Arty, 01 Apr 2006

- IC-45244, SK Rao, Inf, 01 Apr 2006
- IC-45247, HS Phagura, M/Inf, 01 Apr 2006
- IC-45250, HS Madan, Inf, 01 Apr 2006
- IC-45253, V Rajamani D, Inf, 01 Apr 2006
- IC-45255, R Ravichandran, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-45260, M Anand, Arty, 01 Apr 2006
- IC-45263, KS Nagial, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-45273, UC Yadav, Arty, 01 Apr 2006
- IC-45275, IS Singh, JAG, 01 Apr 2006
- IC-41853, Lalit Joshi, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41854, GS Rathore, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41856, Navin Ahuja, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41857, RS Khurb, Int, 01 Apr 2006
- IC-41858, CP Cariappa, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41859, S Radhakrishnan, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41860, S Dayal, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41861, Rajesh Sood, EME, 01 Apr 2006
- IC-41862, RP Punia, M/Inf, 01 Apr 2006
- IC-41864, R Sitaramaiah, EME, 01 Apr 2006
- IC-41865, PK Kumaria, AC, 01 Apr 2006
- IC-41867, MN Devaya, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41868, R Vishwas Singh, EME, 01 Apr 2006
- IC-41869, A Bhatia, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41870, Anil Joshi, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41871, PS Dhillon, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41874, Arun Sehgal, EME, 01 Apr 2006
- IC-41875, VP Paul, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41876, Arvind Singh, AAD, 01 Apr 2006
- IC-41878, JPR Ismail, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41879, GS Sanghera, AC, 05 Jun 2006 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension.
- IC-41881, Rakesh Kapoor, AOC, 01 Apr 2006
- IC-41883, Rakesh Nair, ASC, 01 Apr 2006
- IC-41885, U Suresh Kumar, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41887, Prabodh Sharan, Sigs, 01 Apr 2006
- IC-41889, YS Ganesh, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41891, Ajay Kumar Roy, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41893, PG Pawar, Guards, 01 Apr 2006
- IC-41894, SS Dhankhar, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41896, RV Desai, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41898, GS Basra, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41899, SS Multani, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41904, Amarjit Singh, AOC, 01 Apr 2006
- IC-41905, Ravinder Malik, ASC, 01 Apr 2006
- IC-41906, Sanjay Rai, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41907, RK Balwada, Sigs, 01 Apr 2006
- IC-41908, S Bahl, AC, 01 Apr 2006
- IC-41909, SA Rehman, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41910, Subir K Sharma, EME, 01 Apr 2006
- IC-41911, RP Singh, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41912, TK Chawla, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41914, Pritam Bishnoi, Sigs, 01 Apr 2006
- IC-41915, Rohit Kapoor, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41923, US Mitharwal, ASC, 01 Apr 2006
- IC-41924, S Grover, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41925, Anand N Thakur, Engrs, 01 Apr 2006
- IC-41926, AH Chauhan, M/Inf, 01 Apr 2006
- IC-41927, Shivender Singh, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41929, RS Bhadauria, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41930, RK Singh, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41932, KS Joon, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41934, SP Goswami, AAD, 01 Apr 2006
- IC-41940, P Kumar, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41945, D Bhattacharjee, Sigs, 01 Apr 2006
- IC-41947, DC Mazumdar, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41949, RIS Mehta, AC, 01 Apr 2006
- IC-41951, Raju Chauhan, Guards, 01 Apr 2006
- IC-41952, S Chowdhary, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41955, ML Aswal, AOC, 01 Apr 2006
- IC-41958, S Arora, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41959, SS Deusi, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41960, AK Channan, Arty, 01 Apr 2006
- IC-41963, Deepak Sharma, Sigs, 01 Apr 2006
- IC-41969, KJ Babu, Inf, 01 Apr 2006
- IC-41970, Anupam Sharma, AC, 01 Apr 2006
- IC-41971, DK Sinha, ASC, 01 Apr 2006
- IC-41972, Mohinder Singh, ASC, 01 Apr 2006
- IC-41973, RL Sharma, Inf, 01 Apr 2006

IC-41977, DS Suhag, Inf, 01 Apr 2006	IC-42089, VKS Patil, Engrs, 01 Apr 2006
IC-41978, JP Potlia, Inf, 01 Apr 2006	IC-42095, K Mohan Das, Inf, 01 Apr 2006
IC-41979, PK Pattanayak, Engrs, 01 Apr 2006	IC-42099, BVB Prasad, Sigs, 01 Apr 2006
IC-41982, T Thomas, Engrs, 01 Apr 2006	IC-42104, P Heeth, AC, 01 Apr 2006
IC-41987, SKS Sharma, EME, 01 Apr 2006	IC-42105, Umesh Sharma, Engrs, 01 Apr 2006
IC-41994, Arun Joshi, Engrs, 01 Apr 2006	IC-42123, S Kuriachan, Arty, 01 Apr 2006
IC-41995, PEM Tshering, Inf, 01 Apr 2006	IC-42133, KJM Roy, Inf, 01 Apr 2006
IC-41997, NK Davas, Inf, 01 Apr 2006	IC-42138, IS Chauhan, Inf, 01 Apr 2006
IC-41998, Sanjay Sah, Arty, 01 Apr 2006	IC-42142, RG Krishnan, Inf, 01 Apr 2006
IC-41999, L Verma, Inf, 01 Apr 2006	IC-42145, RK Kochhar, ASC, 01 Apr 2006
IC-42000, S Gupta, Inf, 01 Apr 2006	IC-42148, Balvinder Singh, Engrs, 01 Apr 2006
IC-42004, RP Kalita, Inf, 01 Apr 2006	IC-42150, Janaki Pant, EME, 01 Apr 2006
IC-42012, Amit Saxena, Engrs, 01 Apr 2006	IC-42156, Sunjoy Kaushal, Inf, 01 Apr 2006
IC-42017, Jaswinder Singh, A/AVN, 01 Apr 2006	IC-42163, KS Dhankhar, EME, 01 Apr 2006
IC-42018, Rattan Singh, AOC, 01 Apr 2006	IC-42165, Ashok Kumar, AAD, 01 Apr 2006
IC-42019, PM Sheode, Sigs, 01 Apr 2006	IC-42169, Birendra Singh, Inf, 01 Apr 2006
IC-42020, Arbindam, Arty, 01 Apr 2006	IC-42171, S Kalla, AC, 01 Apr 2006
IC-42022, RK Gupta, AAD, 01 Apr 2006	IC-42174, NC Sharma, AOC, 01 Apr 2006
IC-42025, RS Bains, Inf, 01 Apr 2006	IC-42178, Vijender Singh, ASC, 01 Apr 2006
IC-42027, Ravada Ravi, Inf, 01 Apr 2006	IC-42179, MJ Singh, Arty, 01 Apr 2006
IC-42029, GS Puri, ASC, 01 Apr 2006	IC-42180, RK Sharma, Inf, 01 Apr 2006
IC-42031, HS Dhanoa, Arty, 01 Apr 2006	IC-42186, Sanjive Sirohi, EME, 01 Apr 2006
IC-42032, Sanjay Dikhit, Sigs, 01 Apr 2006	IC-42187, Paritosh Pant, Inf, 01 Apr 2006
IC-42033, SS Kadyan, Engrs, 01 Apr 2006	IC-42192, Manoj Kumar, Engrs, 01 Apr 2006
IC-42037, SR Sriram, Arty, 01 Apr 2006	IC-42194, VS Rathore, Inf, 01 Apr 2006
IC-42038, VPS Punia, AOC, 01 Apr 2006	IC-42204, A Bahukhandi, EME, 01 Apr 2006
IC-42040, JVSNV Prasad, Inf, 01 Apr 2006	IC-42229, RK Bhaili, Inf, 01 Apr 2006
IC-42044, Prakash Chandra, Inf, 01 Apr 2006	IC-42242, Debasish Roy, AEC, 31 Jul 2006 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension.
IC-42046, Shivinder Singh, Inf, 01 Apr 2006	IC-42263, AK Vyas, AEC, 02 Feb 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension.
IC-42047, S Abraham, Arty, 01 Apr 2006	IC-43995, Rajiv Joshi, EME, 01 Apr 2006
IC-42055, PS Bindra, ASC, 01 Apr 2006	IC-43997, Sunil Kala, Sigs, 01 Apr 2006
IC-42057, M Bhandari, Inf, 01 Apr 2006	IC-43998, VR Deshmukh, EME, 01 Apr 2006
IC-42059, Jackson Mathew, Engrs, 01 Apr 2006	IC-44003, S Joseph, Engrs, 01 Apr 2006
IC-42065, SM Ganigi, EME, 01 Apr 2006	IC-44004, SK Mukherjee, Engrs, 01 Apr 2006
IC-42068, KB Choudhary, Guards, 01 Apr 2006	IC-44005, Augustin TV, Sigs, 01 Apr 2006
IC-42070, Anil Duvedi, Arty, 01 Apr 2006	IC-44008, Rakesh Verma, EME, 01 Apr 2006
IC-42079, JK Shukla, AAD, 01 Apr 2006	IC-44013, VK Singh, EME, 01 Apr 2006
IC-42080, Rajeev Bali, AOC, 01 Apr 2006	IC-44025, Jitender Pal, EME, 01 Apr 2006
IC-42081, CBN Murthy, Engrs, 01 Apr 2006	

- I-C44034, Sanjay Dawar, EME, 01 Apr 2006
 IC-41683, Rakesh Bandhu, Inf, 01 Apr 2006
 IC-45291, P Salhotra, M/Inf, 01 Apr 2006
 IC-45293, PS Gill, Arty, 01 Apr 2006
 IC-45295, PR Surendra, Guards, 01 Apr 2006
 IC-45297, Shammi Raj, Arty, 01 Apr 2006
 IC-45302, VK Singh, AC, 01 Apr 2006
 IC-45305, Vijay Kaul, EME, 01 Apr 2006
 IC-45336, PK Yadav, AC, 01 Apr 2006
 IC-42269, Girish Joshi, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42270, KK Repswal, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42271, Rakesh Rana, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42273, BK Repswal, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42274, P Bhatnagar, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42275, Sandeep Singh, AC, 01 Apr 2006
 IC-42278, BD Rai, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42280, G Bhandari, Guards, 01 Apr 2006
 IC-42281, Hari Om Juneja, EME, 01 Apr 2006
 IC-42282, RG Patil, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42283, GS Kambo, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42284, Ranjit Singh, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42285, SP Rawat, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42287, R Joshy, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42288, Anil Puri, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42289, Narinder Singh, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42290, AS Rathore, AOC, 01 Apr 2006
 IC-42293, PS Behl, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42294, S Jha, AC, 01 Apr 2006
 IC-42296, S Sardana, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42297, G Ramachandran, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42298, U Dwivedi, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42299, IA Khan, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42300, PNA Narayanan, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42303, Suresh Warriar, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-42305, T Misra, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42308, AS Katoch, EME, 01 Apr 2006
 IC-42309, MS Nikam, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42310, VS Ranade, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42311, Sanjeev Bali, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42312, Manoj Mehta, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42313, ND Prasad, M/Inf, 01 Apr 2006
 IC-42314, JS Dhaliwal, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42315, PJ Singh, AOC, 01 Apr 2006
 IC-42318, KAS Randhawa, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42322, Singh Chavan, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42323, Arun Ganguli, EME, 01 Apr 2006
 IC-42324, DK Nautiyal, AC, 01 Apr 2006
 IC-42325, LD Minocha, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42327, A Katoch, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42329, P Dandriyal, EME, 01 Apr 2006
 IC-42331, AK Sasmal, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42332, SY Devasthali, EME, 01 Apr 2006
 IC-42336, AK Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42339, ENP Narayanan, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42343, RD Sharma, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42345, N Shukla, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42346, SK Malhotra, M/Inf, 01 Apr 2006
 IC-42347, N Kumar, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42349, VG Bhatnagar, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42350, PC Roy, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42356, Ajay Pal, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42360, Kabindra Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42361, S Srivastava, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42362, AS Sandhu, AC, 01 Apr 2006
 IC-42363, AK Yadav, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42364, JS Nehra, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42365, Parladh Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42372, Vineet Sood, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42373, S Paliwal, A/AVN, 01 Apr 2006
 IC-42374, PS Bedi, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42376, Raman Kakkar, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42377, SK Chaturvedi, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42378, HC Arun, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42380, AK Tyagi, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42382, S Prashar, M/Inf, 01 Apr 2006
 IC-42384, VK Tiwari, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42385, VS Mathur, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42386, R George, Inf, 01 Apr 2006

- IC-42387, SS Mahal, AC, 01 Apr 2006
 IC-42389, BS Raju, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42390, MU Nair, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-42391, Rakesh Kaul, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-42395, MG Venkatesh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42397, R Kannan, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42399, EV Reddy, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42400, Tumul Varma, EME, 01 Apr 2006
 IC-42401, Ranbir Ray, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42404, J Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42415, G Gill, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42416, Niraj Seth, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42420, J Nair, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42425, Arvind Verma, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42428, S Shourie, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42430, M Sarcar, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42449, D Kapahtia, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42450, MP Varghese, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42455, SP Yadav, ASC, 01 Apr 2006
 IC-42463, SS Joon, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42464, AS Chauhan, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42469, Indraj Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42471, Jayanta Misra, EME, 01 Apr 2006
 IC-42475, Savneet Singh, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42481, AK Verma, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42485, Raj Sinha, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42490, BK Sahoo, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42491, CP Sangra, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42492, A Kathpalia, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42493, HS Shanbhag, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42501, Rajvir Singh, AOC, 01 Apr 2006
 IC-42504, SK Pandey, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-42508, AV Pandia, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42516, OP Gulia, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42517, J Sindhu, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42520, V Verma, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42521, IJS Dhillon, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42538, A Solankey, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42540, JS Khera, AC, 01 Apr 2006
 IC-42542, MK Mago, Guards, 01 Apr 2006
 IC-42546, Raman Sharma, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42548, S Pande, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42549, Vikash Uniyal, EME, 01 Apr 2006
 IC-42552, Sarvajit Singh, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-42555, SP Chaudhary, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42556, MS Pathania, M/Inf, 01 Apr 2006
 IC-42557, TS Gill, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42561, Gopi Iyer, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42572, BP Shahi, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42574, KS Kadian, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42579, RP Tuteja, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42584, R Kaushal, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42585, Gyanodaya, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42588, Shardendu, Arty, 01 Apr 2006
 IC-42592, SN Dixit, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42603, PS Bhatia, AAD, 01 Apr 2006
 IC-42606, Sampath Gopalan, EME, 01 Apr 2006
 IC-42610, JS Makoi, Inf, 01 Apr 2006
 IC-42614, A Kumar, AC, 01 Apr 2006
 IC-42628, JS Sokhi, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-42635, NB Vishen, Int, 01 Apr 2006
 IC-42638, Narendra Patel, AOC, 01 Apr 2006
 IC-42660, Tushar Roy, AOC, 01 Apr 2006
 IC-42706, Arun Datta, AEC, 29 Jan 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 IC-44425, MR Oza, EME, 01 Apr 2006
 IC-44429, DM Raju, EME, 01 Apr 2006
 IC-44434, SK Sharma, Engrs, 01 Apr 2006
 IC-44436, SreeNivas M, Sigs, 01 Apr 2006
 IC-44448, Rakesh Goyal, EME, 01 Apr 2006
 IC-44449, AK Mukherjee, EME, 01 Apr 2006
 IC-44458, B Srinivas, Engrs, 01 Apr 2006
 SL-03112, P Rajendran, SL QM, 30 Oct 2006 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03125, PR Vijayan, SL RO, 01 Apr 2006
 SL-03149, Jagdev Singh, SL RO, 28 Jun 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03151, PL Sharma, SL RO, 01 Aug 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03152, Sukhvinder Singh, SL RO, 01 Aug 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03156, S Mannil, SL RO, 01 Jun 2006 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03159, JS Jaswal, SL RO, 01 Oct 2007 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03194, NP Sankunny, SL B/R, 23 Oct 2006 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension
 SL-03309, RS Cheema, SL APTC, 05 Feb 2008 but seniority wef 01 Apr 2006 without effect on pay & pension

AJAY Goel
 Dy Dir
 MS-8A

No. 103, dated 5th Feb 2009—The president is pleased to make the promotion of the undermentioned officers with effect from the date mentioned against their names:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

Yajjala Vijaya Bhaskara Rao (MR—07588P), AMC, 22 Sep 2008

Tripti Shrivastava (MR—07941W), AMC, 27 Sep 2008

MK Sharma (MR—(07489M), AMC, 29 Sep 2008

E Satish (MR—(07658H), AMC, 01 Oct 2008

Vipul Dutt (MR—(07673X), AMC, 01 Oct 2008

Nidhi Kumar (MR—(07773H), AMC, 01 Oct 2008

Sangram Bhattacharya (MR—(06911M), AMC, 06 Jul 2008

Divaspathi Salimath (MR—(07789N), AMC, 06 Oct 2008

Sanjeev Satish Srivastava (MR—(07611X), AMC, 05 Oct 2008

Sanjay Kumar Rai (MR—(07984L), AMC, 04 Oct 2008

Surjeet Kumar Sharma (MR—(07942Y), AMC, 03 Oct 2008

Karthik Venkataraman (MR—(07659L), AMC, 03 Oct 2008

Tanushri Mukherjee (MR—(07492M), AMC, 01 Oct 2008

Deepa Mahajan (MR—(07490F), AMC, 01 Oct 2008

To be Major

Shivanand Akki (MS—14362M) (MR—(08681H), AMC, 06 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

P-Ramakrishna Prasad (MS—14416H) (MR—08682L), AMC, 04 Feb 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ritu Agarwal (MS—14628N) (MR—08683N), AMC, 07 Apr 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Basundhra Roy (MS—14657H) (MR—08684W), AMC, 07 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Naveen Tripathi (MS—13944A) (MR—08680A), AMC, 06 Jan 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Narayane Vijaya Pralhad (MS—14773L) (MR—08686F), AMC, 17 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dinesh Kumar (MS—14778K) (MR—08687K), AMC, 17 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Prateek Yadav (MS—14679F) (MR—08709X), AMC, 04 Dec 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Amarpal Singh (MS—14463A) (MR—08717W), AMC, 19 Dec 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 14 Jul 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Balasubrahmanyam K (MS—14598F) (MR—08718Y), AMC, 01 Apr 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Thingom Shanti Kumar Singh (MS—14809Y) (MR—08720W), AMC, 29 Mar 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 23 Aug 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kurumapu Gouri Prasad (MS—14900P) (MR—08692P), AMC, 17 Feb 2008

Rizwana Riyaz (MS—13725Y) (MR—08678H), AMC, 22 Oct 2002

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Mohan Preet Bali (MS—13929L) (MR—08679L), AMC, 04 Apr 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Mohan Preet Bali (MS—13929L) (MR—08679L), AMC, 04 Apr 2000 on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Oct 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Naveen Tripathi (MS—13944A) (MR—08680A), AMC, 06 Jan 2000 on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Meenakshi Chopra (MS—14729F) (MR—08719F), AMC, 30 Dec 2004 on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anshul Jain (MR—08540N), AMC, 06 Feb 2008

Nihar Ameta (MR—08574F), AMC, 06 Feb 2008

Vasu Nikunj (MR—08582A), AMC, 06 Feb 2008

B S RATHORE

Maj Gen

Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 104, the 6th February 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be substantive Naib Subedar (Driver)

Hav Munna Lal (No. 13954402F now JC-695865M), 26 Feb 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces).

Hav Mange Ram (No. 13955653X now JC-696152N), 01 May 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces).

Hav Rama Chandra Sahu (No. 13955809K now JC-696141F), 06 May 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces).

Hav Mahabir (No. 13958270W now JC-696051A), 03 Jul 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allces).

Hav Prahlad Prasad Singh (No. 13958835W now JC-696142K), 04 Oct 2007*

Hav Deben Singh (No. 13959413X now JC-696052H), 01 Sep 2007*

Hav Ramesh Kumar (No. 13959419Y now JC-696053L), 10 Sep 2007*

Hav Deo Narayan Mishra (No. 13959604M now JC-696054N), 01 Sep 2007*

Hav Sigamani M (No. 13959669A now JC-696055W), 04 Sep 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay and allces).

Hav Ram Prasad (No. 13960110P now JC-696110F), 05 Nov 2007*

Hav Naresh Kumar (No. 13960494P now JC-696143M), 20 Oct 2007*

Hav Sunil Dutt Naithani (No. 13960621Y now JC-696111K), 21 Nov 2007*

Hav Harendra Rai (No. 13960616N now JC-696177A), 26 Oct 2007*

Hav Madan Lal (No. 13960635Y now JC-696144P), 05 Nov 2007*

Hav Rabindra Nath Kunwar (No. 13960828Y now JC-696145X), 27 Oct 2007*

Hav Jasmant Singh Chhawari (No. 13961240X now JC-696112M), 31 Oct 2007*

Hav Santhosh Kumar (No. 13961434M now JC-696113P), 19 Nov 2007*

Hav Abadh Bihari Sharma (No. 13958688Y now JC-696146A), 03 Nov 2007*

Hav Rajmal (No. 13961654W now JC-696114X), 29 Nov 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allces).

Hav Mahesh Chand (No. 13961695A now JC-696115A), 06 Nov 2007*

Hav Suresh Upadhyay (No. 13961678A now JC-696178H), 02 Jan 2008*

Hav Dhananjay Singh (No. 13961677X now JC-696116H), 19 Nov 2007*

Hav Ram Mehar (No. 13961752A now JC-696147H), 27 Oct 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allces).

Hav Katwate Gajan Manik Rao (No. 13961762A now JC-696179L), 11 Dec 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Roshan Lal (No. 13961886P now JC-696117L), 01 Dec 2007*

Hav Phaujdar (No. 13961930X now JC-696180A), 15 Dec 2007*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Ram Autar (No. 13961941A now JC-696181H), 01 Jan 2008*

Hav Man Singh (No. 13961943L now JC-696182L), 04 Jan 2008*

Hav Shisa Singh (No. 13962005X now JC-696183N), 02 Jan 2008*

Hav Keshav Prasad Mehta (No. 13962064X now JC-696184W), 07 Jan 2008*

Hav Palwe Sesharao Rustom (No. 13962056L now JC-696185Y), 01 Jan 2008*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Sarwan Kumar (No. 13962090L now JC-696186F), 11 Feb 2008*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allces).

Hav Satyavir (No. 13962104A now JC-696439L), 03 May 2008*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allces).

KULWANT RANA
Under Secy

No. 105, the 6th Feb 2009.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 28 Dec 2007 and to grant him/her permanent commission in the

Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Ritu Agarwal (MS-14628N) (MR-08683N), AMC, 07 Apr 2003 with seniority for pay and promotion from 07 Apr 2000 (this includes 36 months for antedate for Doctor of Medicine from Saurashtra University which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shivanand Akki (MS-14362M) (MR-08681H), AMC, 06 Mar 2002

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Apr 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

P Ramakrishna Prasad (MS-14416H) (MR-08682L), AMC, 04 Feb 2002

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Basundhara Roy (MS-14657H) (MR-08684W), AMC, 07 Jul 2003 with seniority for pay and promotion from 07 Jan 2003 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Narayane Vijaya Pralhad (MS-14773L) (MR-08686F), AMC, 17 Feb 2004 with seniority for pay and promotion from 17 Feb 2001 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery E.N.T. which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Dinesh Kumar (MS-14778K) (MR-08687K), AMC, 17 Feb 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Prateek Yadav (MS-14679F) (MR-08709X), AMC, 04 Dec 2003

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Amarpal Singh (MS-14463A) (MR-08717W), AMC, 19 Dec 2002

(MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Balasubrahmanyam K (MS-14598F) (MR-08718Y), AMC, 01 Apr 2003

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Thingom Shanti Kumar Singh (MS-14809Y) (MR-08720W), AMC, 29 Mar 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Kunumapu Gouri Prasad (MS-14900P) (MR-08692P), AMC, 17 Feb 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Rizwana Riyaz (MS-13725Y) (MR-08678H), AMC, 22 Oct 1999 with seniority for pay and promotion from 22 Oct 1998 (this includes 12 months for PG Diploma in (Ophthalmology) which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Amit Mahajan (MS-14985W) (MR-08698W), AMC, 12 Apr 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Sep 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Yadvir Garg (MS-14986Y) (MR-08699Y), AMC, 12 Apr 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Biresh Raj (MS-14826Y) (MR-08711P), AMC, 29 Mar 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Mohan Preet Bali (MS-13929L) (MR-08679L), AMC, 05 Jan 2000

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Oct 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Naveen Tripathi (MS-13944A) (MR-08680A), AMC, 06 Jan 2000

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Meenakshi Chopra (MS-14729F) (MR-08719F), AMC, 27 Feb 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

B S RATHORE
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

No. 106, dated 6th Feb 2009—The President is pleased to retire Shri Kehri Singh Rohilla, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Oct 2008(AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to allow Shri Kishan Lal Miglani, Section Officer of the CSS in the Ministry of Defence to take voluntary retirement from Government Service w.e.f. 1st Nov 2008 (FN).

K.MURALI
Under Secy.

AIR BRANCH

No. 107, dated 6th Feb 2009—The President is pleased to transfer the under mentioned officer from F(N) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr G Jithendran (24274) Adm and Sqn Ldr Anuj Bhardwaj (24553) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining permanent low non-flying

medical category i.e. 04 Jul 2008 vide Air HQ/21901/24251/PO-3(E) dated 02 Dec 2008.

Sqn Ldr P Deshpande (24251) F(N) to Adm wef 04 Jul 2008.

The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Fg Offr B Prasanth (28068) Adm and Fg Offr MM Purushothaman (28225) Adm in the AF list. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of suspension from flying training i.e. 16 Feb 2005 vide Air HQ letter No. Air HQ/21901/28033/PO-3(E) dated 22 Nov 2005.

Fg Offr SM Bharathi (28033) F(P) to Adm wef 16 Feb 2005.

P SINGH
Wg Cdr
JDPO-3(E)